

अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स

पाकिस्तान ने रद्द किया सार्क सम्मेलन

पाकिस्तान ने इस साल नवम्बर में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन को रद्द करने की औपचारिक घोषणा कर दी है।

- सम्मेलन को रद्द करने का फैसला भारत समेत पांच देशों द्वारा सम्मेलन में शिरकत न करने का फैसला करने के फैसले के बाद लिया गया है।
- पाकिस्तान पर सम्मेलन के लिये गलत माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश के साथ ही श्रीलंका ने भी सम्मेलन में न जाने का ऐलान किया।
-

यूएस और वियतनाम के नौसैनिकों का 7वां वार्षिक नौसैनिक अभ्यास शुरू

यूएस और वियतनाम के नौसैनिकों ने डा नांग के त्यान सा बंदरगाह (Tien Sa Port) में, 7वां वार्षिक नौसैनिक अभ्यास, वियतनाम 2016 शुरू किया।

- इस अभ्यास में, सागर में अनियोजित मुठभेड़ों एवं खोज और बचाव परिदृश्यों के लिए कोड भी शामिल है।

भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' शुरू

भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रीलंका के अंबेपुसा में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच होने वाले इस अभ्यास का नाम 'मित्र शक्ति' दिया गया है।

- भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राईफल्स जबकि श्रीलंकाई दल का प्रतिनिधित्व सिंहा रेजीमेंट कर रही है।

दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में, नाइजरिया दूसरे नंबर पर : विश्वबैंक

विश्वबैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2013 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत में थी।

- ऐसा पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉसपेरिटी (गरीबी और साझा समृद्धि) शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत सबके बीच ऐसा देश है जहां प्रति दिन 1.90 डॉलर की आय वाली गरीबी की रेखा के अंतर्राष्ट्रीय मानक से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। गणना के हिसाब से उनकी संख्या 22.4 करोड़ थी।

- यह संख्या नाइजीरिया के 8.6 करोड़ गरीबों की संख्या के 2.5 गुणा से भी अधिक है। नाइजीरिया दुनिया में गरीबों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।'

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाहयान अगले साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे।

- नाहयान ने कहा, 'हमारे गहरे रिश्ते इतिहास से गहराई से जुड़े हैं। हमारा रणनीतिक सहयोग बढ़ा है और यह विकास की साझा आकांक्षाओं से प्रेरित है।
- 2016 में गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलान्दे थे।

विश्व छात्र दिवस: 15 अक्टूबर

भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं 'मिसाइल मैन' के नाम से विख्यात डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

- वे भारत में एक वैज्ञानिक तथा महान व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित थे।
- वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे।

ब्राजील और भारत ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए

ब्राजील और भारत ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें निवेशसहयोग और सुविधा, मवेशी, आनुवांशिकी, औषधि और खेती के क्षेत्रों में सहयोगसे सम्बंधित समझौते हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील की कंपनियों को भारत में निवेशहेतु आमंत्रित किया। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल तेमर गोवा में आयोजितसम्मलेन में भाग लेने आए।
- ब्राजील लेटिन अमरीका में भारत का सबसेमहत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।

भारत और हंगरी ने जल संसाधन के क्षेत्र में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और हंगरी के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोगबढ़ाने हेतु समझौता जापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की। बैठक कीअध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

- पहला समझौता जल संसाधन और कृषि तकनीक में नई पहल और दूसरा समझौतादोनों देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी परिषदों के बीच सहयोगबढ़ाने के लिए किया गया।

गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 17 अक्टूबर

संयुक्तराष्ट्र का गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 1933 सेप्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है।

- इस वर्ष इसकी थीम है - अपमान और बहिष्कार से भागीदारी की ओर बढ़ें : गरीबी को इसके सभी रूपों में समाप्त करें।

विश्व खाद्य दिवस: 16 अक्टूबर

विश्वस्तर पर 16 अक्टूबर 2016 विश्व खाद्यदिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व में भुखमरी खत्म करना है।

- वर्ष 2016 के लिए इस दिवस का विषय क्लाइमेट इजर्जिंग।फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू. अर्थात “जलवायु परिवर्तन: कृषि एवंखाद्यान में भी बदलाव आवश्यक” को निर्धारित किया गया है।

ब्रिक्स देश बनाएंगे अपनी अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

पांच देशों के समूह ब्रिक्सने बाजार उन्मुख सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र साख एजेंसी स्थापित करनेपर आज सहमति जताई है।

- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह के आठवें शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की गई।

भारत-म्यांमार में हुए तीन समझौते

भारत और म्यांमार के बीच कृषि, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र मेंसहयोग बढ़ाने के लिए तीन समझौतों परदस्तखत किए गए।

- ये समझौते भारत दौरे पर आई म्यांमार की नेता आंग सान सू की के साथ राजनयिक स्तर की वार्ता के दौरान हुए। समझौता ज्ञापन जिन पर हस्ताक्षर किए गए:
 - म्यांमार के बीमा उद्योग के लिए एक शैक्षिक और व्यावसायिक निर्माण कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए समझौता ज्ञापन
 - पावर सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
 - भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार के बीच बैंकिंग पर्यवेक्षण पर सहमति

अमेरिका ने म्यांमार पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाये

अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2016 को म्यांमार के खिलाफ लगभग दो दशकों से जारी आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया है।

- ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि विदेशी संपत्ति नियंत्रण के तहत आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध हटा लिये गये हैं।
- म्यांमार की सरकार पर अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे।

पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के खिलाफ विधेयक पारित

पाकिस्तान संसद के संयुक्त सत्र में 6 अक्टूबर 2016 को दो विधेयक पारित किये गये। इनमे पहले विधेयक के अंतर्गत ऑनर के नाम पर हत्या किये जाने के खिलाफ कानून लाया गया। दूसरा, अपराधियों की डीएनए द्वारा पहचान करके उन्हें सज़ा दिलाना।

- दोनों विधेयकों के शीर्षक हैं - आपराधिक कानून संशोधन (ऑनर के नाम पर किये जाने वाले अपराध) अधिनियम 2016 एवं बलात्कार विरोधी (अपराधिक कानून संशोधन) अधिनियम 2016।
- ऑनर किलिंग में शामिल परिवार के लोगों को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास (25 वर्ष) की सज़ा दी जाएगी। नये कानून के तहत यदि पीड़ित परिवार माफ़ी भी दे देगा तो भी आजीवन कारावास अनिवार्य होगा, इस माफ़ी से केवल फांसी की सज़ा से छूट प्राप्त होगी।

विश्व डाक दिवस: 9 अक्टूबर

विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 09 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1874 में स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की वर्षगांठ भी है।

- वर्ष 2016 के लिए विश्व डाक दिवस का थीम है - नवाचार, एकीकरण और समावेशन।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: 10 अक्टूबर

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।

- इस वर्ष इसकी थीम "मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा" है।
- यह दिवस पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों की लामबंदी के उद्देश्य से मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस: 11 अक्टूबर

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे बालिका दिवस के नाम से भी जाना जाता है।

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम "Girls' Progress = Goals' Progress: What Counts for Girls" है।
- 19 दिसम्बर, 2011, को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 66/170 को स्वीकार करते हुए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में स्वीकार किया था। इसका उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों और विश्व भर में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को मान्यता देना है।
- अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को संबोधित करने, उन्हें सशक्त करने और उनके मानवीय अधिकारों को पूरा करने पर केन्द्रित है।

रूस और तुर्की सैन्य & खुफिया संपर्क तेज करने के लिए सहमत

रूस और तुर्की के नेता, तुर्की के इस्तांबुल में एक मुलाकात के बाद सैन्य और खुफिया संपर्क तेज करने के लिए सहमत हो गए हैं।

- तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एरदोगन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात के बाद कहा, उत्तरी सीरिया के शहर अलेप्पो को सहायता की आवश्यकता है और वे उसे सहायता देने को सहमत हो गए हैं।

- दोनों देशों ने काले सागर के जरिये रूसी गैस तुर्की में भेजने के लिए दो पाइपलाइन के निर्माण की एक डील पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास बेलावन में प्रारंभ

भारत एवं इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास बेलावन (इंडोनेशिया) में शुरू हुआ। इसे समन्वित पेट्रोलिंग और भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय समुद्री सहयोग हेतु आयोजित किया जा रहा है।

- इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों की प्रतिबद्धता और हिन्द महासागर में समुद्री सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय नौसेना का जहाज 'कारमुक', जो स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट है और अंडमान निकोबार कमान के तहत आधारित है एक डोर्नियर समुद्री पेट्रोल विमान के साथ 28वें भारत-इंडोनेशिया समन्वित पेट्रोलिंग और दूसरे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है।
- यह अभ्यास अंडमान सागर में 10 से 27 अक्टूबर-2016 तक आयोजित करने का कार्यक्रम है।

वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2016

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान (IFPRI) द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2016 में 118 देशों में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद 97वें स्थान पर रहा है।

- पिछले वर्ष भारत 104 देशों में 80वें स्थान पर रहा था।
- भूखमरी सूचकांक 2016 में देश में भूखमरी के स्तर को 'गम्भीर' करार दिया गया है।
- कुल मिलाकर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, और जाम्बिया सूचकांक में सबसे नीचे रहे जबकि, अर्जेंटीना सबसे ऊपर रहा जहां सबसे कम भूखमरी है।

आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस : अक्टूबर 13

आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDDR) प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है।

- वर्ष 2016 में इसकी थीम "बताने के लिए जीवित रहना : जागरूकता बढ़ाना, मृत्यु दर को कम करना" है।
- इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में अक्टूबर के प्रत्येक दूसरे बुधवार को की गई थी लेकिन 2009 में एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी वार्षिक तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित कर दी।

भारत ने मंडेला फाउंडेशन को 9.3 मिलियन रुपये दान दिए

भारत ने मंडेला फाउंडेशन को, इसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लोगों के कल्याण के काम में मदद करने के लिए, 9.3 मिलियन रुपए का दान दिया है।

- फाउंडेशन के ऑफिस में इसकी घोषणा करते हुए भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम ने कहा कि दान की राशि पीएम नरेन्द्र मोदी की हालिया यात्रा का परिणाम है।

- नेल्सन मंडेला फाउंडेशन की स्थापना 1999 में, तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद की गई थी।

राष्ट्रमंडल से अलग हुआ मालदीव

मालदीव ने खुद को राष्ट्रमंडल से अलग कर लिया है। अपने फैसले का ऐलान करते हुए मालदीव ने इसके लिए समूह के कथित अन्यायपूर्ण फैसले को जिम्मेदार ठहराया है।

- पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को सत्ता से हटाए जाने की परिस्थितियों पर और उसके बाद राजनीतिक संकट सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं होने पर मालदीव अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में है।
- राष्ट्रमंडल 52 देशों का समूह है, जिसके ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश हैं।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 में भारत की 21 स्थानों की छलांग

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा जारी 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016' में भारत 21 स्थानों की छलांग लगाकर 87वें स्थान पर पहुँच गया है।

- रैंकिंग में इस उछाल के साथ, भारत चीन से भी आगे निकल गया है जो 144 देशों की इस सूची में 99वें स्थान पर है।
- इसमें आइसलैंड शीर्ष रैंकिंग पर है जिसके बाद फ़िनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित एक गैर-लाभकारी स्विस् फाउंडेशन है।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और न्यूजीलैंड में तीन द्विपक्षीय समझौते हुए। इनमें दोहरे कराधान से बचाव, खाद्य सुरक्षा और खेलों के समझौते शामिल हैं।

- ये समझौते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उनके समकक्ष न्यूजीलैंड के जॉन की, के बीच वार्ता के दौरान हुए।

विश्व के सबसे अधिक असुरक्षित देशों की सूची जारी

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को जारी 'ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट' के अनुसार विश्व के सबसे अधिक असुरक्षित देशों की सूची जारी की गयी। इसमें भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि पाकिस्तान असुरक्षा की दृष्टि से चौथे स्थान पर है।

- सबसे अधिक असुरक्षित देशों की सूची में नाइजीरिया 2.65 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा।
- सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम देशों की सूची में फ़िनलैंड (6.7) को पहला स्थान प्राप्त हुआ जबकि कतर (6.61) दूसरे स्थान पर रहा।

विश्व मानक दिवस: 14 अक्टूबर

विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है।

- वर्ष 2016 के लिए विश्व मानक दिवस की थीम है - "मानक विश्वास निर्मित करते हैं"।

विश्व मानक दिवस का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

'अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस': 1 अक्टूबर

'अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस' 1 अक्टूबर 2016 को विश्वभर में मनाया गया।

- इस दिन का उद्देश्य वृद्धजनों की समस्याओं व समाज में उनके योगदान को लेकर जागरूकता फैलाना है।
- इस वर्ष इसकी थीम "Take a Stand Against Ageism." है।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस: 2 अक्टूबर

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया गया।

- संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की याद में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।
- आतंकवाद व हिंसा के खिलाफ यह दिवस 2008 से मनाया जा रहा है।

भारत, सिंगापुर में हुए तीन समझौते

भारत और सिंगापुर ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें दो कौशल विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं।

- एक समझौता औद्योगिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में हुआ डीआईपीपी व आईपीओ सिंगापुर के बीच हुआ।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर के तकनीकी शिक्षण संस्थान शिक्षा सेवा (आईटीईईएस) और भारत के कौशल विकास निगम के बीच एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अन्य समझौता असम सरकार और आईटीईईएस सिंगापुर के बीच हुआ।

फ्रांस प्लास्टिक कप और प्लेटों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला पहला देश बना

फ्रांस प्लास्टिक कपों और प्लास्टिक की प्लेटों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया।

- फ्रांस द्वारा सितंबर 2016 में एक विधेयक पारित किया गया जिसे जनवरी 2020 में लागू किया जायेगा। इस विधेयक के अनुसार सभी डिस्पोज़ेबल टेबल सामग्री में 50 प्रतिशत जैविक पदार्थ प्रयोग किये जाने चाहिए। इस मात्रा को जनवरी 2025 में 60 प्रतिशत कर दिया जायेगा।
- यह फ्रांस के एनर्जी ट्रांजीशन फॉर ग्रीन ग्रोथ एक्ट का ही भाग होगा। यह कानून देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए लाया गया है। जुलाई 2016 में फ्रांस द्वारा सुपरमार्केट में प्लास्टिक के थैलों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।
- स्वास्थ्य और पर्यावरण फ्रेंच एसोसिएशन के अनुसार फ्रांस में प्रत्येक एक सेकेंड 150 प्लास्टिक कप फेंके जाते हैं। यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 4.73 बिलियन तक पहुंच जाता है।

विश्व शिक्षक दिवस : 5 अक्टूबर

विश्व शिक्षक दिवस विश्व भर में 05 अक्टूबर को मनाया गया।

- विश्व शिक्षक दिवस 2016 की थीम " शिक्षक को महत्व दें, उनके स्तर में वृद्धि करें" थी।



आईजीआई एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल स्टेटस हवाई अड्डा घोषित किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट एशिया-पेसिफिक का पहला एयरपोर्ट बन गया है।

- यह घोषणा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) ने कनाडा के मांट्रियल शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की।

अरुणाचल सीएम ने माउंट गोरीचेन अभियान को हरि झंडी दिखाई

अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक 10 सदस्यीय माउंट गोरीचेन अभियान को हरि झंडी दिखाई।

- माउंट गोरीचेन अरुणाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊँची चोटी (6488 मीटर) है और इस पर चढ़ाई का प्रयास करने वाला यह राज्य का पहला महिला दल होगा। इस चोटी को एक तकनीकी चोटी के रूप में जाना जाता है और केवल पेशेवर एवं अनुभवी पर्वतारोही ही इसके शीर्ष पर पहुँच सकते हैं।
- इस 10 सदस्यीय दल की अगुआई दो बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी अंशु जम्सेम्पा कर रही हैं।

झारखंड मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना

झारखंड 1 अक्टूबर को मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

- योजना को राज्य के चार जिलों छत्र, हजारीबाग, खुंती व जामतरा में लागू किया गया है।
- यह पहल सब्सिडी को नियमित करने व कालाबाजारी रोकने के लिये की गई है।

बुजुर्गों की हिफाजत के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी किया मोबाइल ऐप

आपातकालीन परिस्थितियों में बुजुर्गों को यथाशीघ्र मदद पहुंचाने और उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक और कदम बढ़ाते हुए एक मोबाइल एप तैयार किया है।

- इसे विश्व वृद्धजन दिवस पर एक समारोह के दौरान उपराज्यपाल नजीब जंग ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए जारी किया।
- यह ऐप आपातकालीन स्थिति तथा तनाव की स्थिति में बुजुर्गों की मदद करेगा।

वर्ष 2017 को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनायेगा हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय किया है।

- खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार समाज के गरीब तबके के लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने पर बल दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री के रूप में अपने दो वर्ष पूरे करने वाले खट्टर ने मौजूदा वर्ष को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित किया।
- खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर 31 अक्टूबर को कुछ अन्य योजनाओं की घोषणा की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को गुड़गांव में एक राज्य-स्तरीय समारोह के दौरान कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे।

देश में पहला जनजातीय महोत्सव 2016 शुरू

प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल 2016 का उद्घाटन किया।

- इस कार्निवाल का उद्देश्य जनजातियों में यह भावना पैदा करना है कि वह मुख्यधारा का हिस्सा हैं।

- इस कार्निवल का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज की संस्कृति और हुनर की विविधताओं का संरक्षण और संवर्धन करना है।

नागपुर बना प्रदेश का पहला डिजिटल जिला

नागपुर प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराजधानी की सभी 29000 ग्राम पंचायतें दिसम्बर 2018 तक डिजिटल हो जायेगी।

8 अक्टूबर: भारतीय वायुसेना का 84वां स्थापना दिवस

हर साल 8 अक्टूबर को देशभर में वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना का 84वां स्थापना दिवस है जिसकी शुरुआत 1932 में हुई थी।

- आधिकारिक तौर पर भारतीय साम्राज्य की एक सहायक वायु सेना के रूप में वर्ष 1932 में 8 अक्टूबर को पहली बार वायु सेना दिवस मनाया गया।

गोवा घोषणापत्र के साथ ब्रिक्स सम्मेलन का समापन

गोवा घोषणापत्र के साथ 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का समापन हो गया। यह सम्मेलन 15-16 अक्टूबर को गोवा के बैनोलिम शहर में हुआ। इस वर्ष इसकी थीम 'उत्तरदायी समावेशी और सामूहिक समाधान का निर्माण' थी।

- सदस्य देश ब्राजील के राष्ट्रपति मिचेल टेमर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने सम्मेलन में भाग लिया।
- ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स शिखर बैठक के अंत में 'गोवा घोषणापत्र' स्वीकार करते हुए कहा कि अपने क्षेत्रों से आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है। 109 सूत्रीय इस घोषणा-पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है।

राजनाथ सिंह ने 10 दिवसीय 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2016' का किया शुभारंभ

संस्कृति मंत्रालय ने भारत की विरासत को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), जनपथ, नई दिल्ली में 10 दिवसीय विविध सांस्कृतिक उत्सव 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2016' का आयोजन किया।

- इस समारोह का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा, नगालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभा आचार्य भी मौजूद रहे।
- शुभारंभ के मौके पर लगभग 400 कलाकारों ने लोक और जनजातीय सहित विभिन्न नृत्यकलाओं का प्रदर्शन किया।

- यह उत्सव 24 अक्टूबर, 2016 तक लोगों को भारत की संपन्न संस्कृति से जोड़े रखेगा।

मोदी ने किया शौर्य स्मारक का उद्घाटन

पीएम मोदी ने भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया।

- मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्मारक बनवाया है। इसमें शहीदों के नाम के अलावा सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के मुश्किल हालात दिखाए गए हैं।
- इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर व तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे।

केंद्र सरकार ने खनन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की

खनन मंत्रालय ने अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क द्वारा नवीनतम उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनन निगरानी प्रणाली(एमएसएस) लांच की है।

- एमएसएस एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है, जो आटोमेटिक रिमोट-सेंसिंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए है।
- भारतीय खानब्यूरो द्वारा भास्कराचार्य इंस्टिट्यूट फॉर स्पेस ऐप्लिकेशन्स एंड गेओ-इन्फार्मेटिक्स (BISAG), गांधीनगर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के समन्वय में एमएसएस विकसित किया गया है।

अशोक लीलैंड ने पहली 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक बस पेश की

हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने अपनी पहली 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक बस 'सर्किट' पेश की।

- इस बस की क्षमता 35 से लेकर 65 यात्रियों तक की है। एक बारचार्ज होने के बाद, मानक परिस्थितियों में यह 120 किलोमीटर तक चल सकती है।

मोदी ने हिमाचल में तीन जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में तीन जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी संचयी उत्पादन क्षमता 1,752 मेगावॉट है।

इन परियोजनाओं में:

- कोलडम परियोजना: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बिलासपुर जिले में 4x200 मेगावॉट परियोजना,
- परवती परियोजना: एनएचपीसी की कुल्लू जिले में 540 मेगावाट की स्टेज-III परियोजना,
- रामपुर परियोजना: सतलुज जल विद्युत निगम लि. की शिमला जिले में 412 मेगावॉट की परियोजना शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना में राष्ट्रीय एससी एसटी हब आरंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के उद्यमियों की सहायता हेतु लुधियाना में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब आरंभ किया। इसके साथ ही जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट योजना भी आरंभ की गयी।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गये तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को 500 चरखे भी बांटे गये।

कश्मीरी लाल हिरण 'क्रिटिकली एनडेंजर्ड' घोषित

हंगुल नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी हिरण विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने इस खूबसूरत प्राणी को धरती पर विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे 'गंभीर संकटग्रस्त' (क्रिटिकली एनडेंजर्ड) प्रजाति घोषित किया है।

- हंगुलका सदियों से शिकार किया जा रहा है तथा इसकी प्रजातियों को नष्ट किया जा रहा है जिसके चलते इसकी संख्या सिमटकर 150 रह गई है।

आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल

स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को 18 अक्टूबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

- आईएनएस अरिहंत के शामिल होने पर भारत विश्व का छठा देश बन गया जिसके पास स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है।
- इससे पहले 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के पास ही परमाणु पनडुब्बीयां मौजूद थीं।

आईएनएस तिहायु भारतीय नेवी में शामिल

वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (WJFAC) श्रेणी की शिप आईएनएस तिहायु को ईस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख एचसीएस बिष्ट की मौजूदगीमें नेवी में शामिल किया गया।

- 315 टन का आईएनएस तिहायु ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया छठवां WJFAC है।

महाराष्ट्र ने 'कौशल्य सेतु' पहल लांच की

19 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने कौशल्य सेतु (SETU - Self-Employment and Talent Utilisation) पहल लांच की। यह छात्रों में गुण विकास का एक कार्यक्रम है।

- इस पहल से राज्य में 7.5 लाख रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।
- इस पहल के तहत, महाराष्ट्र बॉर्ड के दसवीं व बारहवीं में फेल छात्रों को कौशल विकास कॉर्सेज में प्रवेश दिलाया जायेगा ताकि उनका एक साल बर्बाद ना हो।

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा के बारे में पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 अक्टूबर 2016 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने किया था।

- सम्मेलन का विषय था- समावेशी, जागरूक और नैतिक भागीदारी के लिए मतदाता शिक्षा।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रबंधन निकायों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और मतदाता शिक्षा की पहल साझा करना।
- इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 27 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।
- सम्मेलन के दौरान मतदाता शिक्षा पर ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क वॉइज डॉट नेट का शुभारंभ किया गया।

वडोदरा में खुलेगी पहली रेलवे यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को वडोदरा हवाई अड्डे पर ईको फ्रेंडली इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया।

- इस दौरान पीएम ने रेलवे की कायाकल्प के लिए रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया।
- इसके बाद पीएम विकलांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और करीब 8000 दिव्यांग जनों को जरूरी उपकरण बांटे।

सरकार ने पेश की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना

केंद्र सरकार ने एक क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की शुरुआत की है, जिसमें क्षेत्रीय हवाई अड्डों से एक घंटे की उड़ान सेवा के लिये 2500 रु की सीमा लगाई गई है।

- इस योजना के तहत एयरलाइनों को लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग के लिये रियायती शुल्क का ऑफर दिया जायेगा।

विश्व का सबसे पुराना विमानवाहक पोत आईएनएस विराट सेवानिवृत्त

विश्व के सबसे पुराने एवं भारतीय नौसेना के सबसे विशाल विमानवाहक पोत आईएनएस विराट को कोच्ची में सेवानिवृत्त किया गया। यह पिछले पांच दशकों से देश की सेवा कर रहा था।

- आईएनएस विराट को सेवाओं से मुक्त करने हेतु मुंबई भेजा गया जहां 29 अक्टूबर को इसकी अधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति की जाएगी।
- विमानवाहक पोत की सेवानिवृत्ति के समय चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल नदकर्णी के नेतृत्व में नौसेना अधिकारियों ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के एर्नाकुलम व्हाफ में आईएनएस विराट को विदाई दी।
- इसे भारतीय नौसेना में वर्ष 1987 में शामिल किया गया था।

पीएम मोदी ने जवानों को सन्देश अभियान की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की है जिससे देश के आम लोग, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिये उन्हें दीपावली की बधाइयाँ और सन्देश भेज सकते हैं।

- यह सन्देश MyGov.in के द्वारा नरेंद्र मोदी एप पर और आल इंडिया रेडियो पर #Sandesh2Soldiers अभियान के अंतर्गत भेजा जा सकता है।

राष्ट्रपति ने अंकलेश्वर और भरूच में किया अस्पताल का उद्घाटन

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने गुजरात में अंकलेश्वर में सरदार पटेल हार्ट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया।

- राष्ट्रपति ने अस्पताल के परिसर में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया तथा संस्थान में संबोधित भी किया।

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का टी3 टर्मिनल देश में पहली प्लैटिनम ग्रीन एयरपोर्ट बिल्डिंग घोषित

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने घोषणा की कि टी3 टर्मिनल ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त कर ली है।

- आईजीबीसी के 14वें ग्रीन बिल्डिंग सम्मेलन में आईजीबीसी द्वारा डायल के सीओओ डगलस वेबस्टर एवं प्रोजेक्ट निदेशक रॉय सेबेस्टियन को प्रशस्ति पत्र तथा भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया। यह कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया।
- इस पुरस्कार स्वरूप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई हड्डा (आईजीआई) प्लैटिनम सम्मान पाने वाला पहला हवाई अड्डा बना। इससे पहले एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा आईजीआई को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा घोषित किया गया।
- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का ही भाग है। इसे 2001 में स्थापित किया गया।

अर्जुन वाजपेयी ने विश्व की छठी सबसे ऊँची चोटी फतह की

भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने नेपाल-तिब्बत सीमा पर दुनिया की छठी सबसे ऊँची चोटी 'चो यू' पर फतह हासिल कर तिरंगा लहराया। चो यू समुद्र तल से 8188 मीटर ऊंचा है।

- इस सफलता के साथ ही 23 वर्षीय वाजपेयी 8000 मीटर से अधिक ऊँची पांच चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गये हैं।

2017 तक सबको बिजली उपलब्ध होगी: केंद्रीय बिजली मंत्री

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात का भरोसा दिलाया कि 1 मई, 2017 से भारत में सभी के लिए 100 बिजली उपलब्ध होगी।

- उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा विकसित मोबाइल एप शहरी ज्योति अभियान (Urja) को भी लांच किया। यह एप शहरी बिजली वितरण क्षेत्र में ग्राहक के संपर्क को बढ़ाने के लिए है।

हृदय परियोजना के लिए 114 करोड़ रु मंजूर

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत पांच शहरों में कोर विरासत स्थलों के आस पास अधिसंरचना बढ़ाने के लिए 114 करोड़ रु की मंजूरी दी है।

- ये पांच शहर हैं :- वाराणसी (उत्तर प्रदेश), अमृतसर (पंजाब), द्वारका (गुजरात), पुरी (ओड़िशा) और वारंगल (तेलंगाना)।

वन रैंक वन पेंशन पर जस्टिस रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा की

वन रैंक वन पेंशन पर एक सदस्सीय न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को जमा की।

- केंद्र सरकार ने इस समिति की नियुक्ति पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में किया था।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मलेन की मेजबानी करेगा भारत

भारत अगले महीने होने वाले "आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन" (AMCDRR) की मेजबानी करेगा।

- 3 नवंबर को होने वाला यह एक तीन दिवसीय सम्मलेन है जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यालय (UNISDR) के साथ मिलकर किया जाएगा।

ज्ञान दर्शन चैनल के प्रसारण हेतु दूरदर्शन और इग्नू का समझौता

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसारण सेवा दूरदर्शन और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU) ने चार ज्ञान दर्शन शैक्षणिक चैनलों के प्रसारण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- ज्ञान दर्शन का सफलतापूर्वक प्रसारण 2 जून, 2014 से हो रहा है किन्तु इसरो द्वारा ये सुविधा INSAT 3C से GSAT-10 पर कर दिए जाने के कारण यह बंद हो गया था।

देवेन्द्र फडणवीस द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया।

- MCIA 17-सदस्सीय संचालन परिषद् द्वारा संचालित किया जाएगा।
- मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (MCIA) प्रारंभ में एक्सप्रेस टावर में स्थित होगा।

बठुकम्मा उत्सव गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज

तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में राज्य के पारंपरिक उत्सव "बठुकम्मा" का आयोजन किया।

- इस उत्सव में दस हजार महिलाओं ने भाग लिया और इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स में स्थान दिया गया।
- तेलंगाना सरकार ने "बठुकम्मा" उत्सव को अपना राज्य उत्सव घोषित किया है।

तेलंगाना में 21 नए जिले अस्तित्व में आए

तेलंगाना सरकार ने 11 अक्टूबर को 21 नए जिले बनाए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या 31 हो गई है।

- तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से कटकर हुआ था और यह दो जून 2014 को अस्तित्व में आया था। तब इसमें 10 जिले थे। यह भारत का 29वां राज्य है।
- इसके अलावा 25 नये राजस्व उपखंड, 125 नये मंडल, चार पुलिस आयुक्तालय, 23 पुलिस सब-डिविजन, 28 नये सर्किल व 91 पुलिस स्टेशन भी बनाये गए हैं।

एनीमिया से मुक्ति के लिए मप्र में आरम्भ करेगा लालिमा अभियान

मध्यप्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं की एनीमिया से मुक्ति के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवम्बर से लालिमा अभियान आरम्भ किया जाएगा।

- इसके अंतर्गत आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ऑगनवाडियों, शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।



पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस एएमसीडीआरआर में मनाया जाएगा

पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 05 नवंबर, 2016 को मनाया जाएगा। इस अवसर का स्मरण करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) चैम्पियन्स के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) 2016 में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा।

- इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा 3 से 5 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) के सहयोग से किया जा रहा है।

दिल्ली में शुरू हुआ ब्रिक्स देशों का पहला ट्रेड फेयर

गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली में पहला ब्रिक्स व्यापार मेला और प्रदर्शनी शुरू हो गयी है।

- यह मेला ब्रिक्स देशों – ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को अत्याधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में की गई प्रगति को दिखाने का एक मंच उपलब्ध कराएगा।
- इस मेले का मुख्य विषय है – ब्रिक्स- नवाचार के लिए सहयोग।

- हरियाणा इस मेले का स्टेट पार्टनर है।

कबड्डी विश्व कप स्थल बना भारत का पहला परिवर्तनीय स्टेडियम

अहमदाबाद में चल रहे कबड्डी विश्व कप के आयोजन स्थल, 'द एरिना बाय ट्रांस स्टेडिया' भारत का पहला परिवर्तनीय स्टेडियम बन गया है।

- 550 करोड़ रुपये का स्टेडियम एक बटन के एक स्पर्श से 6 मिनट में एक इनडोर से एक आउटडोर स्टेडियम में परिवर्तित हो जाता है।

जम्मू में आईआईएम खोले जाने को कैबिनेट की मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू में एक अस्थायी परिसर में आईआईएम की स्थापना और संचालन के लिए मंजूरी दे दी।
- बयान में कहा गया, "यह जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज का हिस्सा है।

कैबिनेट ने दी नई इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी

मुक्त बाजार ढांचे की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पेट्रोलियम कंपनियों को गन्ने पर आधारित इथेनॉल के मूल्यों में संशोधन की नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब अगले सुगर सत्र 1 दिसम्बर 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक इथेनॉल की कीमत 42 रु प्रति लीटर से घटकर 39 रु प्रति लीटर हो जाएगी।

प्रसार भारती के सीईओ जवाहर ने दिया इस्तीफा

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल अगले वर्ष फरवरी में पूरा होना था।

- उनकी नियुक्ति यूपीए कार्यकाल में हुई थी। सरकार एक लेखक भी हैं तथा अखबारों में स्तंभ लिखते हैं।
- प्रसार भारती में नियुक्ति से पहले वह 2008-2012 तक संस्कृति मंत्रालय में सचिव भी रह चुके थे।

भारत के संचार उपग्रह जीसेट-18 का सफल प्रक्षेपण

भारत के संचार उपग्रह जीसेट-18 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसे फ्रेंच गुयाना के कारु से प्रक्षेपित किया गया।

- जीसेट-18 को इसरो द्वारा निर्मित किया गया है तथा यह इसरो के 14 उपग्रहों के वर्तमान बेड़े को मजबूत करते हुए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल सहयोग संबंधी समझौता जापन को भी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधनों के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला किया गया।

- समझौता जापन में समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ की तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है।

नितिन गडकरी ने भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली आरंभ की

भारत में बनने वाले पुलों और सेतुओं को सुरक्षा के मद्देनजर मजबूत बनाये जाने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने 4 अक्टूबर 2016 को भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) का नई दिल्ली में शुभारम्भ किया।

- आईबीएमएस द्वारा देश में पुलों की मौजूदा हालत, उनके रख-रखाव, मरम्मत तथा उनकी संरचना के अनुरूप कदम उठाये जायेंगे। पुलों की संरचनात्मक स्थिति को जानने के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी तथा उनके द्वारा सटीक परीक्षण करके ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जायेगा।
- यह पुलों से सम्बंधित विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जिसे एक संस्था अथवा स्वामी द्वारा चलाया जा रहा है। इसके डाटाबेस में डेढ़ लाख से अधिक पुल हैं।
- अभी तक एक लाख पंद्रह हजार पुलों को दर्ज किया जा चुका है जबकि पांच हजार पुलों के आंकड़े अभी एकत्रित किये जा रहे हैं।
- पुलों को निर्माण के समय सम्बंधित राज्य द्वारा एक भिन्न नंबर प्रदान किया जाता है जिससे इसकी पहचान होती है। इसे दिया जाने वाला नंबर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा जिला सड़क आदि मानकों पर आधारित होता है।

बैंकिंग व अर्थव्यवस्था

गूगल 2017 में भारत में डेटा सेंटर स्थापित करेगा

गूगल वर्ष 2017 तक माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को पीछे छोड़ने की उम्मीद से मुंबई में भारत में अपने पहले डाटा सेंटर की स्थापना करेगा।

- गूगल भारत में सर्च, ईमेल, व एंड्रॉइड के जरिये एक विस्तृत मार्केट शेयर नियंत्रित करता है।
- इसने मेल व अन्य सेवाओं में भी उल्लेखनिय उपलब्धि दर्ज कराई है लेकिन क्लाउड बिजनेस में यह अमेज़न व माइक्रोसॉफ्ट से पीछे है।

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2016 : आंध्रप्रदेश, तेलंगाना शीर्ष पर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 अक्टूबर 2016 को राज्यानुसार "बिजनेस में आसानी" (Ease of Doing Business) की रैंकिंग पर रिपोर्ट जारी की है।

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने 98.78 फीसदी के साथ अखिल भारतीय रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जिनके बाद 98.21 प्रतिशत के साथ गुजरात; 97.32 प्रतिशत के साथ छत्तीसगढ़ और 97.01 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश रहा।

कोटक महिंद्रा बैंक ने बीएसएस माइक्रोफाइनेंस का अधिग्रहण किया

निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने बीएसएस माइक्रोफाइनेंस का 139.2 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। यह सौदा पूरी तरह नकद भुगतान करके पूरा किया गया।

- बैंक ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस एक उभरता हुआ क्षेत्र है इसलिये उसने इसमें प्रवेश करने का फैसला किया है।
- इस अधिग्रहण से कोटक को अपना ग्राहक आधार बढ़ने व प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के पूरा होने की उम्मीद है।

'ईज ऑफ़ डूइंग' बिजनेस सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर

विश्वबैंक की ताजा 'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई सुधार नहीं हुआ है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत 190 देशों में 130वें पायदान पर है।

- पिछले साल भारत 131वें स्थान पर था।
- विश्वबैंक की डूइंग बिजनेस 2017 की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर है। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, नार्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन तथा पूर्व यूगोस्लाव मैसिडोनिया गणराज्य का स्थान है।

फिलपकार्ट के CFO संजय बावेजा ने दिया इस्तीफा

फ्लिपकार्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) संजय बावेजा ने ज्वाइन करने के दो साल बाद ही इस्तीफा दे दिया है।

- संजय ने नवंबर 2014 में ज्वाइन किया था जिससे पहले वह टाटा कम्यूनिकेशंस में ग्लोबल सीएफओ थे।
- संजय ने भारती एयरटेल, जेराॅक्स, मोडिकॉर्प जैसी कंपनियों में तीन दशकों से भी अधिक समय तक काम किया है।

केंद्र सरकार ने ईटीएफ में ईपीएफओ निवेश 5 से 10 प्रतिशत बढ़ाया

केंद्र सरकार ने विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ) में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का निवेश 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

- श्रम व रोजगार राज्य मंत्री बंडारु दत्तात्रेय के अनुसार यह निर्णय ईटीएफ में निवेश करके अच्छा रिटर्न पाने हेतु लिया गया है।
- पिछले एक वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 6577 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस निवेश ने 13.24 प्रतिशत का रिटर्न भी प्राप्त हुआ।

देश के बैंकों में जमा रकम पहली बार 100 लाख करोड़ के पार

आरबीआई ने बताया है कि सितंबर में देश के बैंकों में कुल जमा रकम पहली बार 100 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है।

- बतौर आरबीआई, सितंबर में बैंक जमाओं में सर्वाधिक 5.32 लाख करोड़ बढ़ोतरी हुई, जो 20 साल पहले बैंकों की कुल जमा से अधिक है। बैंकों में रु 10 लाख करोड़ डिमांड डिपॉजिट और रु 90 लाख करोड़ सावधि जमा है।
- बैंकों में जमा राशि पिछले पांच वर्षों में 12.88% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ी है, यह पिछले पांच साल में 19.9% की सीएजीआर हो गई है।

बाज़ार पूंजीकरण : इंफोसिस ने ओएनजीसी से पांचवा स्थान गंवाया

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार ऑइल एवं नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी इंफोसिस लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए, भारत के बाजार पूंजीकरण के क्षेत्र में पांचवी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।

- टीसीएस 4.66 खरब रु. की बाज़ार पूंजीकरण के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और आईटीसी लिमिटेड क्रमशः 3.49 खरब रु., 3.21 खरब रु. और 2.90 खरब रु. की बाज़ार पूंजीकरण के साथ है।

भारत रूस से खरीदेगा 200 हेलीकॉप्टर

भारत के मिसाइल मैन ए.पी.जे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर, भारत और रूस ने एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए भारत में Ka-226T हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने के लिए औपचारिक रूप से समझौता किया।

- समझौते के तहत, संयुक्त रूसी-भारतीय इंटरप्राइजेज रूसी हेलीकाप्टरों, जेएससीरोसोबोरोनेक्सपोर्ट और भारत के एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के द्वारा गठित रूसी-भारतीय संयुक्त उद्यम. नौ साल के लिए 200 लाइट मल्टी रोल Ka-226T हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का स्थानीयकरण और उत्पादन किया जाएगा।

86100 करोड़ रु नकद में रूस की हुई एस्सार आयल कंपनी

रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोज़नेफ्ट के नेतृत्व में रूसी कंपनियों का समूह एस्सार आयल में 98% हिस्सेदारी 86100 करोड़ रु नकद में खरीदेगा।

- इसमें रोज़नेफ्ट और आयल ट्रेडिंग कंपनी ट्रेफीगुरा व यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स, प्रत्येक की 49% हिस्सेदारी खरीदेंगी।

मेक माई ट्रिप ने प्रतिद्वंद्वी आईबीबी को खरीदा

ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने अपने प्रतिद्वंद्वी आईबीबी समूह को खरीदने की घोषणा की है।

- हालांकि इस सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है।
- बतौर कंपनी, इस बदलाव के बाद मेक माई ट्रिप के ग्रुपसीईओ दीप कालरा अपने पद पर बने रहेंगे जबकि आईबीबी के संस्थापक आशीष कश्यप सह-संस्थापक के तौर पर इससे जुड़ेंगे।

भारत में पेट्रोल पंप खोलने के लिए सरकार ने बीपी पीआईसी को लाइसेंस दिया

भारत सरकार ने भारत में 3500 पेट्रोल पंप खोलने के लिए यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम 'पेट्रोलियम इंडस्ट्री कंपनी' को अधिकारिक रूप से लाइसेंस जारी किया है।

- इस कंपनी का मुख्यालय इंग्लैंड के लन्दन में स्थित है।
- भारत में वर्तमान में 56,190 पेट्रोल पंप हैं जिनमें से अधिकतर का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं।

बैंकों को 17.5 लाख डेबिट कार्ड रिप्लेस करने के निर्देश

रिजर्व बैंक ने बैंकों को 17.5 लाख डेबिट कार्ड रिप्लेस करने के निर्देश दिए हैं। ये वे डेबिट कार्ड हैं, जिनका कुछ एटीएम में इस्तेमाल किए जाने के बाद इनकी सिक्युरिटी पर शक हुआ है।

- जुलाई 2016 तक देश में डेबिट कार्ड की संख्या करीब 697 मिलियन थी।
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार्ड को बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने करीब 6 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक करके बदलने की प्रोसेस शुरू कर दी है।

भारत को दूसरी परमाणु पनडुब्बी लीज पर देगा रूस

रूस एक सौदे के तहत भारत को एक दूसरी पनडुब्बी अकुला- 2 लीज पर देने को तैयार हो गया है जिसकी कीमत लगभग दो अरब डालर होगी।

- अकुला- दो श्रेणी की पनडुब्बी के वर्ष 2020-2021 में भारतीय जलक्षेत्र में आने की उम्मीद है।
- सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के इतर हुई मुलाकात के दौरान हुआ था।

एसबीआई ने सिलचर को उत्तर-पूर्व में पांचवां जोन घोषित किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गुवाहाटी, शिलांग, डिब्रूगढ़ और जोरहाट के बाद सिलचर को उत्तर-पूर्व में अपने 5वें जोन के रूप में घोषित किया है।

- इससे पहले, सिलचर गुवाहाटी जोन के तहत था और इस तरह के एक दुर्गम क्षेत्र में शिकायतों और ग्राहकों के मुद्दों का समाधान करने में बैंक को मुश्किल हो रही थी।
- बैंक के उत्तर-पूर्व में 736 शाखाओं के साथ 3,000 एटीएम और ग्राहक सुविधा के लिए 3,000 ग्राहक सेवा केन्द्र हैं।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु रेल एवं शहरी विकास मंत्रालय ने एमओयू साइन किया

शहरी विकास मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत स्मार्ट सिटी लाइन्स पर यात्रीसुविधाओं को बढ़ाने के लिए, स्टेशनों तक आसानी से पहुँच एवं रेलवेस्टेशनों पर भूमि के सर्वोत्तम उपयोग हेतु सक्षम बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के क्षेत्रों को पुनर्विकसित किया जाएगा।

- प्रारंभ में पुनर्विकास के लिये 10 स्टेशनों को चुना गया है। ये हैं - सरायरोहिल्ला (दिल्ली), भुवनेश्वर, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, कोटा, ठाणे, मरगाँव (गोवा), तिरुपति और पुदुचेरी।

विप्रो ने अपिरियो का अधिग्रहण किया

आईटी कंपनी विप्रो ने अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म अपिरियो, एक ऑफशोर फर्म जो कंपनियों को क्लाउड अनुप्रयोगों को लागू करने में मदद करती है, का अधिग्रहण किया है।

- अपिरियो को 2006 में क्रिस बार्बिन, माइक ओ ब्रायन, ग्लेन विंस्टीन और नरिंदर सिंह द्वारा स्थापित किया गया था।
- लगभग एक दशक पुरानी फर्म ने 2015 में 200 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।

'अन्य वित्तीय सेवाओं' में 100% एफडीआई को मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य वित्तीय सेवाओं में स्वतः मंजूरी मार्ग से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है।

- हालांकि बीमा क्षेत्र, जिसमें पूर्व निर्धारित एफडीआई सीमा (49%) है, उनमें अब भी उतनी ही रहेगी।
- अन्य वित्तीय सेवाओं में वे सेवाएं शामिल हैं जिनका विनियमन किसी वित्तीय नियामक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है।

एचएसबीसी भारत में बंद करेगी पी-नोट्स

एचएसबीसी भारत में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) आपरेशन बन्द करेगा क्योंकि विनियामक ढांचे के सख्त नियमों ने व्यापार मुश्किल बना दिया है।

- एचएसबीसी पिछले वित्त वर्ष के अंत में 6 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में शीर्ष पांच पी-नोट्स जारीकर्ताओं में से एक है।
- पार्टिसिपेटरी नोट यानी (पी-नोट) एक तरह का ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट होता है। जो इन्वेस्टर्स सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराए बगैर इंडियनसिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहते हैं, वे इनका इस्तेमाल करते हैं।

बहुत जल्द आएगा 2,000 रु का नोट

2,000 रुमूल्यवर्ग का नोट बहुत जल्द प्रचलन में आने वाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस सबसे उच्च मूल्य की मुद्रा नोट को लाने के लिए बहुतजल्द अपनी तैयारियां पूरी कर लेगा।

- नोटों को पहले से ही मैसूर की मुद्राप्रींटिंग प्रेस में मुद्रित किया जा रहा है और उनका भेजना भी शुरू हो गया है।

आदित्य बिरला ग्रुप मध्यप्रदेश में 20,000 करोड़ रु निवेश करेगा

आदित्यबिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने मध्यप्रदेश में रिटेल, टेलिकॉम और सीमेंट के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रु का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई।

- मध्यप्रदेशग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यआईडिया सेलुलर के बड़े बाजारों में से एक है जहाँ वे दो दशकों में लगभग 7,000 करोड़ रु का निवेश कर चुके हैं।

नाबार्ड ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 19,702 करोड़ रुपये आवंटित किये

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी एनडब्ल्यूडीए को 19,702 करोड़ रुपये का ऋण आवंटित किया है।

- यह ऋण दीर्घावधिक सिंचाई कोष एलटीआईएफ के तहत 50 सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है।
- यह ऋण केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जा रही मदद का ही भाग है।

भारत-अल्जीरिया के मध्य उर्वरक के संयुक्त उद्यम पर विचार

भारत, उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया में एक मल्टी-बिलियन डॉलर वाला उर्वरक संयंत्रस्थापित करने हेतु संयुक्त उद्यम व्यवस्था की योजना बना रहा है। अल्जीरिया के उद्योग एवं खनन मंत्री और भारत के खनन तथा रसायन एवं उर्वरकराज्य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया के बीच होने वाली बैठक के बाद इस संबंधमें कुछ पहल हो सकती है।

- अभीअल्जीरिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार \$1.5 बिलियन सालाना है जोभारत को तेल एवं गैस आयात करने के साथ अल्जीरिया के पक्ष में है। भारत, 6 अरब टन क्षमता वाले अल्जीरिया फॉस्फेट ब्लॉक में 49 फीसदी हिस्सेदारी चाहता है।

वित्त मंत्रालय ने सोने के बांड की ताजा किश्त की घोषणा की

वित्तमंत्रालय ने सॉवरेन गोल्ड बांड की छठे किश्त की घोषणा की है। बांड की अवधि 8 साल की होगी जिसमें ब्याज भुगतान तिथि पर 5 साल के बाद बाहर निकला जा सकता है।

- प्रति व्यक्ति को प्रति वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम के निवेश की अनुमति होगी।

विश्व बैंक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बांग्लादेश को \$2 बिलियन सहायता देगा

विश्वबैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये बांग्लादेश को 2 बिलियन अमेरिकीडॉलर की सहायता देने का संकल्प किया है।

- बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन से निपटने में बेहद कमजोर है और जलवायुपरिवर्तन विश्व में उठने वाले 70% तूफानों के लिए जिम्मेदार है।

म्यांमार में 53 साल बाद खुली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई ने म्यांमार में 53 साल बाद अपना कामकाज एक बार फिर शुरू किया है। म्यांमार की राजधानी यंगून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की शुरुआत की गई है।

- म्यांमार में एंट्री के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदगी दुनिया भर के 37 देशों में 198 कार्यालयों में हो गई हैं।

रेपो रेट में 0.25 फ़ीसदी की कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों में नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में 0.25 फ़ीसदी की कटौती कर दी है। इस तरह, 0.25 फ़ीसदी की कटौती के बाद रेपो रेट 6.5 फ़ीसदी से घटकर 6.25 फ़ीसदी हो गया है।

- उर्जित पटेल के रिज़र्व बैंक के गवर्नर का पद संभालने के बाद उनकी यह पहली क्रेडिट पॉलिसी है।
- आरबीआई ने कैश रिज़र्व अनुपात यानी सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 4 फ़ीसदी पर कायम है जबकि सांविधिक चलनिधि अनुपात 20.75 है।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर को 7 फीसदी से घटाकर 6.75 फीसदी किया गया है।

भारतीय फार्मा कंपनियां बायोफार्मासिटिकल प्रतिस्पर्धा और निवेश (बीसीआई) के सर्वेक्षण में 19 वीं रैंक पर

भारतीय दवा कंपनियां बायोफार्मासिटिकल प्रतिस्पर्धा और निवेश (बीसीआई) के सर्वेक्षण में 59 के स्कोर के साथ 100 कंपनियों में 19 वें स्थान पर स्थान पर रही है।

- 28 देशों का सर्वेक्षण अमेरिका के औषधि अनुसंधान और निर्माताओं द्वारा किया गया।
- यह सर्वेक्षण का तीसरा संस्करण था।

केंद्र, पानीपत रिफायनरी विस्तार पर 15000 करोड़ रुपये निवेश करेगा

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में पानीपत स्थित रिफायनरी की क्षमता 15 मिलियन टन से बढ़ाकर 25 मिलियन टन करने के लिए लगभग 15000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

- केन्द्र सरकार इसके अलावा सरकार इसी रिफायनरी में कृषि अवशेषों से वैकल्पिक ईंधन बनाने के लिये इंडियन ऑयल कारपोरेशन 500 करोड़ रुपये की लागत से एक एथनॉल संयंत्र भी स्थापित करेगी।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिफायनरी के विस्तार से इंधन गुणवत्ता बीएस-4 से बढ़कर बीएस-6 हो जाएगी। इससे न केवल वर्ष 2020 तक देश में ईंधन गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने उबेर के साथ गठजोड़ किया

विदेशी ऋणदाता स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने उबेर के साथ गठजोड़ का एलान किया किया है जिसके अंतर्गत छः देशों में उसके क्रेडिटकार्ड धारकों को, एप से कैब बुलाने पर 25 प्रतिशत का कैश बैक मिलेगा।

- भारत में, कार्डधारकों को प्रतिमाह उबेर की सभी कार यात्राओं पर 20 प्रतिशत का कैश बैक मिलेगा, शर्त यह है कि यह कैश बैक प्रति माह 600 रु हो।
- इसके साथ ही, पहली बार उबेर यूजर्स को पहली तीन यात्राओं पर 50 रु का कैश बैक मिलेगा।

आईसीआईसीआई बैंक ब्लॉकचैन ट्रांजेक्शन करने वाला पहला भारतीय बैंक

आईसीआईसीआई बैंक ब्लॉकचैन तकनीक से बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।

- इसके लिये बैंक ने पश्चिम एशियाई फर्म एमिरेट्स एनबीडी के साथ साझेदारी की है।
- ब्लॉकचैन तकनीक ट्रांजेक्शन की प्रोसेस को आसान बना देती है तथा इसमें लगने वाला समय घटकर कुछ मिनट का ही रह गया है।

एक्विम बैंक, एनडीबी के बीच करार को सरकार की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के निर्यात-आयात बैंक एक्विम बैंक तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक एनडीबी और सदस्य राष्ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच करार को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।

- नव विकास बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स विकास परियोजनाओं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं व विकासशील देशों के लिये स्रोत जुटाना है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ टाई-अप नवीनीकृत किया

राज्य-संचालित बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UIC) के साथ अपने कॉर्पोरेट एजेंसी गठजोड़ का नवीनीकरण किया है।

- इसके तहत ग्राहक, देश भर में बैंक की सभी 1,896 शाखाओं पर कहीं भी UIC के सभी उत्पादों की खरीद कर सकते हैं।

2016 और 2017 में 7.6 प्रतिशत रहेगी भारत की वृद्धि दर : आईएमएफ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि 2016 और 2017 में भारत 7.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करेगा।

- आईएमएफ का अनुमान है वैश्विक वृद्धि दर 2016 में सुस्त पड़कर 3.1 प्रतिशत रहेगी। 2017 में यह कुछ सुधार के साथ 3.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के साथ समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए

ऑयल इंडिया लिमिटेड तेल और गैस क्षेत्र का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसने अपने भंडार आधार को बढ़ाने और अपने पुराने हो चुके तेल क्षेत्रों से अधिक से अधिक रिकवरी करने के उद्देश्य से अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विश्वविद्यालय दुनिया में तेल और गैस के क्षेत्र में एक शीर्ष विश्वविद्यालय है।

- इस समझौता जापान पर नई दिल्ली में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौता जापान में अन्य बातों के अलावा पुराने हो चुके तेल क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल रिकवरी में सुधार करने और तेल रिकवरी में बढ़ोत्तरी करने, भूकंप विवेचना और भंडारण लक्षण अध्ययन, ड्रिलिंग में सुधार और बेहतर प्रयास प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन अध्ययनों के क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

नियुक्तियां

रियाद मैथ्यू पीटीआई के नए अध्यक्ष बने

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के नए चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन के रूप में क्रमशः मलयालम मनोरमा के निदेशक रियाध मैथ्यू को, और इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका का चयन किया गया है।

- मि. मैथ्यू, जो मनोरमा प्रबंधन में हैं और मलयालम मनोरमा के वरिष्ठ सहायक संपादक हैं, ने बॉम्बे समाचार के निदेशक होर्मुसजी एन. कामा का स्थान लिया है जबकि मि. गोयनका ने वाईस-चेयरमैन के रूप में मि. मैथ्यू का स्थान लिया है।

शक्ति सिन्हा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के नए प्रमुख

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (NMML) के निदेशक पद के लिए, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शक्ति सिन्हा की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है।

- शक्ति सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उनके कार्यालय में काम कर चुके हैं, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक भी रह चुके हैं।
- नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में निदेशक का पद वर्ष 2015 में महेश रंगराजन की सेवानिवृत्ति के बाद से खाली था।

रतन टाटा बने टाटा समूह के अंतरिम चैयरमेन

कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे बड़ी उथल-पुथल में से एक में, टाटा संस बोर्ड ने रतन टाटा को सायरस मिस्त्री की जगह अंतरिम चैयरमेन नियुक्त किया है।

- यह फैसला एक बोर्ड मीटिंग में किया गया।
- मिस्त्री ने चैयरमेन पद से इस्तीफा दे दिया है।

सुनील भारती GSMA के चेयरमैन चुने गए

भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल को, GSMA (ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन) का चेयरमैन चुना गया है। वे जनवरी 2017 से दिसम्बर 2018 तक दो साल के लिये इस पद पर रहेंगे।

- वर्तमान GSMA चेयरमैन जॉन फ्रेडरिक बक्सस 2016 के अंत में बोर्ड छोड़ रहे हैं।
- मित्तल, जो ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, वे संगठन का रणनीतिक विभाग संभालेंगे, जो विश्व के 800 मोबाइल ऑपरेटर का और ब्रोडर मोबाइल इकोसिस्टम में 300 से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

सुनील गावस्कर 'स्ट्रोक एंबेसडर ऑफ इंडिया' बने

पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को 'स्ट्रोक एंबेसडर ऑफ इंडिया' बनाया गया है।

- दसवीं विश्व स्ट्रोक कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) के शुरुआती समारोह में इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने यह घोषणा की जो डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड स्ट्रोक आर्गनाइजेशन के साथ मिलकर समारोह की मेजबानी कर रहे हैं।
- स्ट्रोक दुनियाभर में विकलांगता व मौत का प्रमुख कारण है।
- गावस्कर 'स्ट्रोक एंबेसडर आफ इंडिया' बनकर और यह जागरूकता फैलाकर खुश हैं कि स्ट्रोक का इलाज हो सकता है।
- विश्व स्ट्रोक दिवस प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को होता है। प्रत्येक दो साल में होने वाली डब्ल्यूएससी का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है।

अजय गॉडाने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त

डॉ अजय एम. गॉडाने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किये गए हैं।

- अभी वे विदेश मामलों के मंत्रालय में अपर सचिव (राजनीतिक) के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- इससे पहले वे पपुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में भारत डिप्टी कौंसुल जनरल के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं।

मैसिमो कॉस्टेंटिनी को टेबल टेनिस का मुख्य कोच नियुक्त किया

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) ने इटली के मैसिमो कॉस्टेंटिनी को दो वर्ष की अवधि हेतु राष्ट्रीय टेबल टेनिस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति पुनः की गयी है।

- टीटीएफआई के महासचिव धनराज चौधरी के अनुसार मैसिमो कॉस्टेंटिनी पूर्व में भी भारत को अपनी सेवाएं दे चुके हैं जो प्रभावी रही।
- मैसिमो कॉस्टेंटिनी एक अक्टूबर से राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पदभार संभाल लेंगे। मैसिमो कॉस्टेंटिनी का कार्यकाल 30 सितंबर 2018 तक रहेगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ अरुंधति भट्टाचार्य का कार्यकाल एक साल बढ़ा

केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया है। उन्हें यह विस्तार ऐसे वक्त में मिला है, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सहयोगी बैंकों के मर्जर के काम में जुटा है।

- इसी साल की शुरुआत में कैबिनेट ने एसबीआई और सहयोगी बैंकों के अलावा भारतीय महिला बैंक के विलय को मंजूरी दी थी।
- सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं।

विराट कोहली बने वैल्वोलाइन के ब्रांड एम्बेसडर

वैल्वोलाइन कमिंसइंडिया ने भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के साथ ब्रांड एम्बेसडर केसमझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- इस समझौते के तहत कोहली, वैल्वोलाइन इंजन ऑयल्स और लुब्रिकेंट रेंज का चेहरा होंगे।

नवदीप सिंह सूरी यूएई में भारत के नए राजदूत

वरिष्ठ राजनयिक नवदीप सिंह सूरी को सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में राजदूत नियुक्त किया गया। यूएई रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है। भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला बड़ा निर्यातक भी है तथा यहां करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं।

- विदेश मंत्रालय के अनुसार 1983 बैच के आईएफएस अधिकारी सूरी के जल्द ही पद ग्रहण करने की संभावना है।
- फिलहाल वह कैम्बोडिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में पदस्थ हैं।

अमनदीप सिंह, निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत के नए राजदूत

1992 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री अमनदीप सिंह गिल को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिनेवा में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।

- निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों पर बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा 1979 में स्थापित किया गया एक मंच है।

विधि आयोग के सदस्य सचिव बने संजय सिंह

पूर्व संसदीय सचिव संजय सिंह को भारत के विधि आयोग में सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

- एक सरकारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सिंह को 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया है।
- भारतीय विधि सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सिंह को अगस्त 2014 में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था।

सायना नेहवाल आईओसी एथलीट आयोग की सदस्य बनी

एक भारतीय खिलाड़ी के लिए एक दुर्लभ सम्मान में, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) एथलीट आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

- साइना को आईओसी अध्यक्ष थामस बाक की ओर से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ है।
- एथलीट आयोग की अध्यक्ष एंजेला रुगिरो हैं और इसमें नौ उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल हैं।

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर आईसीसी की शक्तिशाली उप-समिति के सदस्य बने

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आईसीसी की शक्तिशाली, वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

- अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा संसद भी हैं।

एस. पी. यादव यूरोलोजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए

डॉसत्य प्रकाश यादव यूरोलोजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नार्थ ज़ोन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं।

- उनका कार्यकाल अक्टूबर 2017 से एक वर्ष का होगा।
- आगरा यूरोलॉजी एसोसिएशन के तत्वाधान में 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हुए 3 दिवसीय वार्षिक सम्मलेन में इसकी घोषणा की गई।

पर्यावरणविद राजेंद्र शेंडे संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में चुने गए

दुनिया के 197 देशों ने सर्वसम्मति से भारत की ओर से राजेंद्र शेंडे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रौद्योगिकी एवं मांट्रियल प्रोटोकॉल की आर्थिक आकलन समिति में वरिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में मनोनीति किए जाने को स्वीकृति दे दी। यह ओजोन की परत की रक्षा के मकसद से सर्वाधिक सफल वैश्विक संधि है।

- शेंडे संयुक्त राष्ट्र में इसके पहले वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों के लिए कूटनीतिज्ञ रह चुके हैं और अभी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन फॉर एनवायर्नमेंट (टीईआरआरई) के अध्यक्ष हैं। इनका अमेरिका, ब्राजील, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मोल्दोवा और तुर्कमेनिस्तान ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।
- प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक आकलन समिति संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। यह ओजोन की परत और जलवायु प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए पांच मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों की वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का आकलन करती है।
- यह लागत मूल्य के लाभ का विश्लेषण और नीति से जुड़ी सूचनाएं उन देशों को मुहैया कराती है, जो दीर्घकालिक विकास की दिशा में बदलाव वाले फैसले लेते हैं।

वीजा सीईओ चार्ल्स स्कार्फ का इस्तीफा

सैन फ्रांसिस्को स्थित भुगतान नेटवर्क वीजा के सीईओ चार्ल्स स्कार्फ ने अपने पद से 18 अक्टूबर 2016 को इस्तीफा दे दिया।

- कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वीजा बोर्ड के मौजूदा सदस्य अल्फ्रेड केली जूनियर को नया सीईओ नियुक्त किया है।

गीता फोगाट हरियाणा पुलिस में डीएसपी नियुक्त

हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान गीता फोगाट को हरियाणा पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) नियुक्त किया है।

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के गृह विभाग के प्रस्ताव पर फोगाट को खेल कोटा के तहत ये नियुक्ति देने का फैसला किया गया।

गौतम लाहिड़ी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित

वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी को प्रेस क्लब आफ इंडिया का नया अध्यक्ष तथा विनय कुमार को महासचिव चुना गया है। प्रेस क्लब आफ इंडिया के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी हेतु एक अक्टूबर 2016 को चुनाव आयोजित किए गए थे।

- मतगणना के घोषित परिणामों के अनुसार मनोरंजन भारती उपाध्यक्ष, जॉमी थॉमस संयुक्त सचिव तथा अरुण कुमार जोशी कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए।

लुओ झाओहुई भारत में चीन के नए राजदूत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्व में पाकिस्तान और कनाडा में काम कर चुके वरिष्ठ राजनयिक लुओ झाओहुई को भारत में चीन का नया राजदूत नियुक्त किया है।

- वह भारत में चीन के पूर्व राजदूत ली युचींग के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे जिन्होंने अप्रैल में नई दिल्ली छोड़ा था।

पीवी सिंधू विजाग स्टील की ब्रांड एम्बेसडर

विजाग स्टील की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) ने देश की टॉप रैंक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।

- सिंधू जो वर्तमान में विश्व के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं, वे रियो ओलंपिक में ओलंपिक रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक के बाद एक मैडल जीतने वाली पहली एथलीट भी हैं।

अब्देलिलाह बेकिराने मोरक्को के प्रधानमंत्री नियुक्त

मोरक्को की इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता अब्देलिलाह बेकिराने को मोरक्को का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है।

- मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने बेकिराने की पार्टी द्वारा सबसे अधिक मत प्राप्त किये जाने के पश्चात् उन्हें प्रधानमंत्री बनाये जाने की घोषणा की। मोरक्को की संसद के निचले सदन में 395 सीटें हैं।
- देश में विभिन्न राजनैतिक दलों की मौजूदगी तथा पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने के कारण अब्देलिलाह बेकिराने इस वर्ष भी गठबंधन सरकार का ही गठन करेंगे।

रेनू पाल ऑस्ट्रिया में भारत की राजदूत नियुक्त

पूर्व भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रेनू पाल को ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।

- ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में एक जर्मन-भाषी देश है जिसकी विशेषता पहाड़ी गांव और विचित्र एवं अलंकृत वास्तुकला है।

सरकार ने जी महालिंगम को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया

सरकार ने रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक जी महालिंगम को बाजार नियामक सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।

- अध्यक्ष के अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के तीन पूर्णकालिक सदस्य (WTMs) हो सकते हैं।

सिंधू और श्रीकांत बने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंबेसेडर

ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली पी वी सिंधू और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले के श्रीकान्त के साथ बैंक आफ बड़ौदा (बाँब) ने स्पॉन्सरशिप करार किया है।

- बैंक ने बयान में कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ 3 साल के करार पर सैद्धान्तिक सहमति उनके रियो 2016 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने और देश का गौरव बढ़ाने से पहले ही बन गई थी।
- विश्व बैडमिंटन महासंघ और भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा मान्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बैडमिंटन स्पर्धाओं में अब इन दोनों खिलाड़ियों की जर्सी पर बैंक आफ बड़ौदा का लोगो होगा।

अमृत लुगून इरिट्रिया में भारत के राजदूत नियुक्त

वर्तमान में सूडान में भारत के राजदूत अमृत लुगून को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह खरतूम(सूडान) में रहकर पद संभालेंगे।

- इरिट्रिया, आधिकारिक तौर पर इरिट्रिया राज्य, अफ्रीका में एक देश है। इसकी राजधानी अस्मारा और मुद्रा नक्फा है।

राजीव मिश्रा सॉफ्टबैंक तकनीकी कोष के प्रमुख

जापानी दूरसंचार और इंटरनेट प्रमुख सॉफ्टबैंक कॉर्प ने भारतवंशी राजीव मिश्रा को महत्वाकांक्षी 100 अरब डॉलर कोष के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह कोष दुनिया भर में प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करेगा।

- मिश्रा नसामरिक वित्त के प्रमुख के रूप में 2014 में सॉफ्टबैंक समूह में शामिल हुए और सॉफ्टबैंक इंटरनेट और मीडिया इंक के साथ भी कार्य किया, जिसके सीईओ निकेश अरोड़ा थे।

अजय कुमार भल्ला विदेशी व्यापार के महानिदेशक बने

वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी अजय कुमार भल्ला नई जिम्मेदारी के तहत अब महानिदेशक विदेश व्यापार पद का कामकाज संभालेंगे। वे अनूप वाधवान का स्थान लेंगे जिन्हें वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

- असम-मेघालय काडर से ताल्लुक रखने वाले भल्ला फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय में बतौर सचिव सेवाएं दे रहे थे।

सोमेश शर्मा बने INS के प्रेसीडेंट

राष्ट्रदूत साप्ताहिक के सोमेश शर्मा को इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी (आईएनएस) 2016-17 का प्रेसीडेंट चुना गया। शर्मा को गृह लक्ष्मी (मातृभूमि ग्रुप) के पी बी चंद्रन के स्थान पर प्रेसीडेंट नियुक्त किया गया है।

- अकिला उरंकर (बिजनैस स्टैंडर्ड) इसके नए डिप्टी प्रेसीडेंट बने, के. बालाजी (द हिंदू विकली) इसके वाइस प्रेसीडेंट और शरद सकसैना (हिंदुस्तान टाइम्स) इसके ऑनरेरी ट्रेजरर नियुक्त किए गए।
- वी. शंकर को फिर से सोसायटी का जनरल सैक्रेटरी नियुक्त किया गया।

राजीव शर्मा बने पाँवर फाइनेंस के नए सीएमडी

राजीव शर्मा ने, सरकारी उपक्रम 'पाँवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड' के नए प्रमुख और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पद तत्काल प्रभाव से संभाल लिया है।

- शर्मा ने श्री एमके गोयल का स्थान लिया है जो 30 सितम्बर को सेवानिवृत्त हुए हैं।
- वर्तमान नियुक्ति से पहले वह रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के सीएमडी थे।

कस्टी कलजुलैद को एस्टोनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी

कस्टी कलजुलैद को एस्टोनिया की पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति के रूप में चुना है।

- इसके साथ ही वह एस्टोनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है।
- उन्होंने 81-0 से चुनाव जीता जिसमें 20 सदस्य अनुपस्थित थे।

एस सिवाकुमार 21वें भारतीय विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त

इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (आईएलआई) के प्रोफेसर एस सिवाकुमार को 21वें विधि आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

- वह केरल से हैं तथा कानून से सम्बंधित कई पुस्तकें लिख चुके हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बलबीर सिंह चौहान विधि आयोग के निदेशक हैं।
- पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया था तथा इसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर इसे पुनर्स्थापित किया जाता रहा है।

आर रवींद्र गिनी के राजदूत नियुक्त

आर. रविन्द्र (भारतीय विदेश सेवा-1999) को रिपब्लिक ऑफ गिनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।

- आर. रविन्द्र वर्तमान में, आइवरी कोस्ट (Republic of Cote d'Ivoire) में भारत के राजदूत नियुक्त हैं। अब आइवरी कोस्ट के साथ-साथ वे रिपब्लिक ऑफ गिनी में भी भारत के राजदूत होंगे।

रूपा गांगुली राज्यसभा के लिए मनोनीत

अभिनेत्री और नेता रूपा गांगुली को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। वे क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धु का स्थान लेंगी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था।

- रूपा गांगुली ने प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था। उन्हें हाल ही में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रमुख बनाया गया था।

येसुदास होंगे 'हरित केरलम' प्रॉजेक्ट के ब्रांड एंबेसडर

केरल की वाम गठबंधन सरकार ने जाने माने गायक के.जे. येसुदास को अपने महत्वाकांक्षी 'हरित केरलम' प्रॉजेक्ट का ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

- केरल सरकार का यह प्रॉजेक्ट राज्य को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की एक बड़ी पहल है।
- मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य की विधानसभा को बताया कि बुजुर्ग गायक ने प्रॉजेक्ट से जुड़ने के लिए हामी भर दी है।

सुशील चंद्र सीबीडीटी के चेयरमैन नियुक्त

सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सुशील चंद्र को नियुक्त किया है।

- एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री सुशील चंद्रा, आईआरएस (1980)," की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- वह सीबीडीटी की वर्तमान चेयरपर्सन रानी सिंह नायर, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रही हैं, की जगह लेंगे।

मोहन रेड्डी जर्मनी के वाणिज्य दूत नियुक्त

नास्कॉम के पूर्व चेयरमैन बी वी आर मोहन रेड्डी को जर्मनी का कौंसिल नियुक्त किया गया है। वह तेलंगाना व हैदराबाद में जर्मनी के वाणिज्य दूत (कौंसिल) होंगे।

- मोहन रेड्डी साइंटिस्ट लिमिटेड (साबिक इंफोटेक एंटरप्राइज़ में लिमिटेड) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग की जरूरत है।

स्पेन ने गतिरोध तोड़ा, राजोय फिर से प्रधानमंत्री चुने गये

मारियानो राजोय, स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और अपनी सेंटर-राइट पॉपुलर पार्टी के नेता, संसदीय वोट जीतने के बाद फिर से निर्वाचित किया किये गये।

- राजोय ने एक चुनाव में अपने समग्र बहुमत को खोने के बाद से पिछले साल दिसंबर में एक कार्यवाहक प्रशासन का नेतृत्व किया है।

पुर्तगाल के गुतेरस होंगे संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव

पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरस का संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव बनना तय हो गया है।

- अब 193 सदस्सीय महासभा में औपचारिक मतदान के बाद उनके नाम की घोषणा की जाएगी।



भारत का 47 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह नवंबर में गोवा

सात मराठी फिल्में – चार फीचर और तीन नोन-फीचर फिल्मों सहित– 20 नवंबर से 29 नवंबर तक गोवा में भारतीय पैनोरमा के 47 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म भारत महोत्सव (आईएफएफआई)में दिखाई जाने वाली फिल्मों में शामिल किया गया है।

- सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली बाहुबली और एयरलिफ्ट भारत के आगामी 47 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी।

गंगटोक को 'सबसे स्वच्छ पर्यटक शहर' का सम्मान

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक को 'सबसे स्वच्छ पर्यटक शहर' का सम्मान दिया है।

- यह पुरस्कार 30 सितंबर को नई दिल्ली में गंगटोक नगर निगम के आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त किया।

- इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ और मैसूर को 10 लाख से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले शहरों वाले साफ शहरों के लिए सम्मानित किया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसियों शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 'इंडोसैन' का संयुक्त रूप से आयोजन किया।

यजीदी महिलाओं नादिया और लामिया को मिला सखारोव पुरस्कार

ईराकी मूल की यजीदी महिलाओं- नादिया मुराद और लामिया अजी बशर को यूरोपीय संसद ने प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। दोनों महिलाओं का अपहरण करके इस्लामिक स्टेट (आइएस) के आतंकियों ने उन्हें यौन गुलाम बना रखा था।

- यूरोपीय संसद ने 27 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा की।
- ये दोनों महिलाएं इस्लामिक स्टेट (आइएस) द्वारा 2014 में गुलाम बनाई गई हजारों महिलाओं में से ही हैं तथा मुक्त होने के बाद से वे मानवाधिकारों के लिए काम कर रही हैं।

यश भारती पुरस्कारों की घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 के यश भारती पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 54 व्यक्तित्वों को वर्ष 2016-17 के लिये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु चुना गया है।

- यह पुरस्कार यूपी सरकार द्वारा साहित्य, ललित कला, लोक एवं शास्त्रीय संगीत और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।
- पुरस्कार के लिये चयनित प्रमुख नाम हैं: बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, पटीएम सीईओ विजय शेखर, पैरालंपिक एथलीट वरुण कुमार, कच्वाली गायक आफ़ताब और हाशिम (साबरी बंधू), फिल्म निर्देशक सौरभ शुक्ला।

मैन बुकर प्राइज जीतने वाले पहले अमेरिकी बने पॉल बीटी

अंग्रेजी साहित्य के लिए सबसे बड़ा सम्मान यानी बुकर प्राइज से इस बार अमेरिकी साहित्यकार पॉल बीटी को नवाजा गया। पॉल को उनके उपन्यास 'द सेलआउट' के लिए मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया और इसके साथ वह पहले अमेरिकी लेखक बने, जिसे यह अवॉर्ड मिला।

- जूरी ने कहा कि इस उपन्यास में पॉल ने जिस ढंग से लॉस ऐंजलिस का चित्रण किया है वह हैरान करने वाला और मजेदार है। पॉल ने इस उपन्यास में जातिगत समानता के मुद्दे को व्यंग्यात्मक ढंग से पेश किया है।
- मैन बुकर प्राइज जीतने वाले को £52,500, (\$64,100, 59,000 यूरो) की राशि दी जाती है।
- मैन बुकर प्राइज 1969 में लॉन्च किया गया था और इससे नवाजे जाने वालों में आइरिस मर्डॉक और सलमान रश्दी भी शामिल हैं।
- यह पुरस्कार मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से अलग है, जो इस वर्ष दक्षिण कोरिया की हान कांग को दिया गया था।

कर्नाटक के अलमट्टी बांध को विश्व बैंक पुरस्कार

कर्नाटक के सबसे बड़ा जलाशयों में से एक अलमट्टी (Almatti) बांध को, बांध की क्षमता बढ़ाने के लिये नवीकरण हेतु कोष के सबसे अच्छे उपयोग में उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक के पुरस्कार के लिये चुना गया है।

- विश्व बैंक ने कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड को, रिसाव रोकने के लिये जो बांध को नुकसान पहुंचा सकता था, 72 करोड़ रु का अनुदान दिया था।

गुजरात के 'रानी की वाव' को स्वच्छ विरासत स्थल का दर्जा

गुजरात की 900 वर्ष पुरानी रानी की वाव को देश के 'स्वच्छ सांस्कृतिक विरासत स्थल' का दर्जा दिया गया है।

- 01 अक्टूबर को भारतीय स्वच्छता सम्मलेन में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमति ने बनवाया था। रानी की वाव गुजरात के पाटण में स्थित है।
- 2014 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया।

जुआन मेनुअल सांतोस को 2016 का शांति का नोबेल पुरस्कार

फार्क समझौते के चलते शांति का नोबेल पुरस्कार इस साल कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मेनुअल सांतोस को मिला है। इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 376 नॉमिनेशन हुए थे।

- हालांकि कोलंबिया में वामपंथी विद्रोही लड़ाकों के साथ शांति समझौते को जनमत संग्रह में ठुकरा दिया गया है। बहुत से कोलंबियाई लोगों का कहना है कि शांति समझौते में फार्क को लेकर नरमी बरती गई।
- पिछले साल का नोबेल पुरस्कार ट्यूनीशिया के संगठन 'नैशनल डायलॉग क्वार्टेट' को दिया गया था।

भारतीय मूल के वैज्ञानिक को यूएस में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ पैकेजिंग से संबंधित एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक, कीर्तिराज कुंडलिक गायकवाड़ को प्रतिष्ठित आईएएफपी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके शोध

कार्य "ऑक्सीजनसंवेदनशील खाद्य उत्पादों के लिए सक्रिय पैकेजिंग के क्षेत्र में ऑक्सीजनको अवशोषित करने वाले पैकेज का विकास" करने के लिए दिया गया है।

- 2000 डॉलर का यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संघ की सेंट लुइस, यूएसए में आयोजित वार्षिक बैठक में प्रदान किया गया।

मिज़ोरम के पछुआउ भारत के सबसे वृद्ध कार्यरत पत्रकार

मिज़ोरम सरकार और मिज़ोरम पत्रकार संघ (MJA) ने लालबियाथांग पछुआउ को देश का सबसे वृद्ध कार्यरत पत्रकार घोषित किया है।

- यह 90 वर्षीय एक मिज़ो दैनिक ' संपादक हैं जो उनके द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। वे तीन मिज़ोरम पत्रकार संघ के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं।

सी राधाकृष्णन मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित

प्रख्यात लेखक सी राधाकृष्णन को, साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मातृभूमि साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है।

- इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है।
- मातृभूमिके प्रबंध निदेशक एमपी वीरेंद्र कुमार और प्रबंध संपादक पीवी चंद्रन ने एकबयान में बताया कि राधाकृष्णन का चयन उपन्यासकार एम मुकुंदन की अध्यक्षतावाले एक निर्णायक मंडल ने किया जिसमें सेतु और साराह जोसेफ सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
- लिटरेरी अकादमी ऑफ अंडिया, केरल साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कार से सम्मानित राधाकृष्णन उपन्यासकार, लघु कथाकार के साथ ही फिल्म निर्देशक, शिक्षक और मीडिया कर्मी रहे हैं।

सोनम कपूर को मिला ईटी पैनेक का 'ट्रेंडसेटर अवार्ड 2016'

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर को मुंबई में वर्ष 2016 का ईटी पैनेक 'ट्रेंडसेटर अवार्ड' दिया गया।

- यह पुरस्कार उन उद्यमियों, इनोवेटर्स, न्यूजमेकर्स और एथलीट को दिया जाता है जिनकी कहानियों ने लाखों को प्रभावित और प्रेरित किया है और जिनकी सेवाओं ने लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाये हैं।

रॉबर्ट डी नीरो को चैपलिन पुरस्कार

फिल्म सोसायटी ऑफ लिंकन सेंटर ने दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को अपने 44वें वार्षिक चैपलिन पुरस्कार के लिए चुना है।

- डी नीरो 9/11 हमले के मद्देनजर निचले मैनहट्टन में आर्थिक संभावनाओं की बढ़ोतरी के लिए लॉन्च किए गए ट्रिबेका फिल्म महोत्सव के सह संस्थापक भी हैं।
- फिल्म सोसायटी द्वारा डी नीरो को एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को एमएसएमई ऋणों के लिये पुरस्कार

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः 2597 करोड़ रुपये (23% वार्षिक) और 994 रुपये (7.10% वार्षिक)की वृद्धि के साथ एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है।

- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंध निदेशक एस ए रमेश रंगन और महाप्रबंधक देवेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में बैंक की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

डेविड कॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार

प्रसिद्ध ब्रिटिश सांख्यिकीविद डेविड कॉक्स को 19 अक्टूबर 2016 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया।

- उन्हें चिकित्सा, विज्ञान, और इंजीनियरिंग में सर्वाइवल विश्लेषण मॉडल लागू करने के लिए सम्मानित किया गया है।

अनुबंध के सिद्धांत के लिए मिला इकनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार

ब्रिटिश-अमेरिकी अर्थशास्त्री ओलीवर हार्ट और फिनलैंड के बेंगट हॉल्मस्ट्रॉम को आर्थिक क्षेत्र में अनुबंध का सिद्धांत के विकास में उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- हार्ट अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं जबकि हॉल्मस्ट्रॉम इंस्टिट्यूट ऑफ मेसाचुसेट्स में अर्थशास्त्र और प्रबंधन के प्रोफेसर हैं।
- नोबेल के पुरस्कारों में अर्थशास्त्र के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार जिसे स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। इसे वर्ष 1968 में स्वीडन के केन्द्रीय बैंक ने शुरू किया था।

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईबीसी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त उद्यम कंपनी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए आईबीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2014-15 और ट्राफी दी गई।

- नई दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने दिया। इस अवसर पर आईबीसी अध्यक्ष श्री शोभित उप्पल उपस्थित थे। एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पुरस्कार महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) श्री डी. कमरा ने प्राप्त किया।

सर इयान मैककेलेन यूके थिएटर पुरस्कार से सम्मानित

प्रसिद्ध अभिनेता सर इयान मैककेलेन को यूके थिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- उन्हें उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है।
- 77 वर्षीय अभिनेता "एक्स-मैन" और "लार्ड ऑफ़ द रिंग्स" फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।

अमेरिकी सिंगर बॉब डिलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार

अमेरिकी सिंगर बॉब डिलन को 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गायक को अमेरिकी गानों में नई काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।

- किसी गीतकार को पहली बार उनके गीतों के लिए नोबेल दिया गया है।
- इसके साथ ही इस वर्ष नोबेल पुरस्कारों का सिलसिला समाप्त हो गया, क्योंकि यह साल का आखिरी नोबेल पुरस्कार था।

अपने साहित्यिक कार्य के लिए रमेश पोखरियाल निशंक युगांडा सरकार द्वारा सम्मानित

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, अपने साहित्य के माध्यम से मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, युगांडा सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- निशंक, जो वर्तमान में हरिद्वार से भाजपा सांसद है, ने कई पुस्तकें व रचनाएं लिखी हैं।

आर ए माशेलकर को वी कृष्णमूर्ति अवार्ड

सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक आर ए माशेलकर को संगठन के विकास के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर द्वारा वी कृष्णमूर्ति उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया ने हैदराबाद में एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया।

'मुर्गा' को स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार

नवोदित निर्देशक कात्यायन शिवपुरी की फिल्म 'मुर्गा' को स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल (SBSFF) में सबसे अच्छी फिल्म के रूप में चुना गया है।

- सूचना व प्रसारण मंत्री वेंकय्या नायडु ने कात्यायन शिवपुरी को 10 लाख रुपये का नकद इनाम दिया है।
- जूरी में शामिल वानी त्रिपाठी, गितांजली राव और प्रहलाद कक्कड़ ने इन फिल्मों में से 20 शॉर्ट फिल्मों को चुना।

जापान के ओहसुमी ने नोबेल चिकित्सा पुरस्कार जीता

जापान के योशिनोरी ओहसुमी को 'ऑटोफेजी' से संबंधित उनके काम के लिए इस साल का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार दिया जाएगा। ऑटोफेजी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोशिकाएं 'खुद को नष्ट करती हैं' और उन्हें बाधित करने पर पार्किंसन, मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

- ऑटोफेजी कोशिका शरीर विज्ञान की एक मौलिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्से के सही पुनर्चक्रण के लिए जरूरी है और इसकी बेहतर समझ का मानव स्वास्थ्य व कैंसर सहित दूसरी बीमारियों के लिए बड़ा निहितार्थ है।
- 71 साल के ओहसुमी ने 1974 में तोक्यो विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। वह इस समय तोक्यो इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी में प्रफेसर हैं।
- वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 23वें जापानी और चिकित्सा का नोबेल जीतने वाले छठे जापानी हैं। पुरस्कार के साथ 80 लाख स्वीडिश क्रोनोर (करीब 9,36,000 डॉलर) की राशि दी जाती है।

भारतीय मूल की लड़की ने जीता गूगल साइंस पुरस्कार

भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी छात्रा 16 वर्षीय कियारा निर्घिन ने अमेरिका में वार्षिक गूगल विज्ञान मेले में 50,000 डॉलर (करीब 33.27 लाख रुपये) की स्कॉलरशिप का शीर्ष पुरस्कार जीता। संतरे के छिलके का इस्तेमाल कर उसने सस्ते सुपर एब्रजोबेंट तैयार किया जो जमीन में पानी बनाए रखने में मदद करता है।

- खबर के मुताबिक 16 वर्षीय कियारा निर्घिन का प्रोजेक्ट 'नो मोर थर्स्टी क्रॉप्स' दक्षिण अफ्रीका में भीषण सूखे से निपटने में मदद करेगा।
- गूगल विज्ञान मेला 13 से 18 साल के उभरते वैज्ञानिकों की खोज के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर विश्व के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिकों को मिला भौतिकी का नोबेल

ब्रिटिश वैज्ञानिकों डेविड थॉलेस, डंकेन हाल्डेन और माइकल कोस्टरलिट्ज़ को इस साल धातु की 'अजीब अवस्था' के अध्ययन के लिये फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है।

- तीनों वैज्ञानिक टोपोलोजी के विशेषज्ञ हैं। टोपोलोजी गणित की एक शाखा है जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है।

- थौलेस को 931,000 डॉलर पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा मिलेगा जबकि हाल्डेन और कोस्टरलिट्ज शेष राशि में आधा-आधा साझा करेंगे।

वन्यजीव फ़िल्मकार प्रग्ना चौटा को फ़्रांस द्वारा नाईटहुड उपाधि प्रदान की गयी

फिल्म निर्माता एवं हाथियों के शोधकर्ता प्रग्ना चौटा को हाल ही में फ़्रांस सरकार द्वारा नाईट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ मेरिट उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें इसी वर्ष बेंगलुरु में सम्मानित किया जायेगा।

- चौटा आने माने फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यह फाउंडेशन एशियन वन्य हाथियों पर शोध करती है तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करती है।
- उन्होंने हाथियों पर एक कोड बुक भी लिखी है जिसके अनुसार हाथियों के संरक्षण में प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी गयी है। यह पुस्तक आदिवासियों द्वारा बनाये गये चित्रों तथा उनके हाथियों के साथ संबंधों को बताती है।

तीन वैज्ञानिकों को 2016 का रसायन का नोबेल पुरस्कार

फ़्रांस के जीन पियरे सावेज, ब्रिटेन के जे फ्रेजर स्टोडार्ट और नीदरलैंड्स के बर्नार्ड फेरिंगा को संयुक्त रूप से 2016 के रसायन के नोबेल पुरस्कार केलिए चुना गया है। इन्हें ये पुरस्कार "बेहद छोटी आणविक मशीन पर कार्य के लिए दिया गया है।

- इन्हें ये पुरस्कार "बेहद छोटी आणविक (मोलिक्यूलर) मशीन के डिजाईन और सिंथेसिस" के लिए दिया गया है।
- विज्ञानियों द्वारा विकसित आणविक मशीन बाल से भी एक हजार गुना पतली है। इनकी गति को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा ऊर्जा देने पर ये कार्य कर सकेगी।

अशोक पर लिखी पुस्तक के लिए नयनजोत लाहिड़ी को पुरस्कार

अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नयनजोत लाहिड़ी को उनकी पुस्तक "Ashoka in Ancient India" के लिए 2016 के जॉन. एफ. रिचर्ड पुरस्कार से नवाजा गया है।

- रिचर्ड पुरस्कार वार्षिक रूप से अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन (AHA) द्वारा दक्षिण एशियाई इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है।

खेल जगत

भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती

भारत ने मलेशिया में पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक की जीत के साथ दिवाली मनाई।

- भारत ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारत ने 2011 में उद्घाटन टूर्नामेंट भी जीता था।

भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता

भारत ने ढाका में खेला जा रहा चौथा अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत ने खिताबी मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश को 5-4 से हराया।

- भारत ने आखिरी क्षणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले मैच की हार का बदला लेते हुए टूर्नामेंट जीत लिया।
- भारत ने दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले भारत 2001 में जीता था।

कबड्डी वर्ल्ड कप अहमदाबाद में शुरू

अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आईकेएफ) ने 12 प्रतिभागी देशों के कप्तानों की मौजूदगी में कबड्डी वर्ल्ड कप-2016 का औपचारिक आगाज किया।

- मेजबान भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, पोलैंड, थाईलैंड, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, जापान, अर्जेंटीना और केन्या की टीमों अपनी शक्ति, कला और तकनीक के प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।
- उद्घाटन मैच में दक्षिण कोरिया ने भारत को 34-32 से हराया।

फर्राटा धाविका श्रावणी नंदा को एकलव्य पुरस्कार

फर्राटा धाविका श्रावणी नंदा को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2016 में 24वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है।

- श्रावणी ने फरवरी में गुवाहाटी में हुए 12वें एशियाई खेलों में 200मी में स्वर्ण, 100मी और 4x100मी रिले में रजत जीता था।
- उन्होंने जून 2015 में थाईलैंड में असियन ग्रां प्री एथलेटिक्स में 100मी और 4x100मी रिले में कांस्य पदक भी जीता था।

चीन ओपन: मरे ने जीता पुरुष एकल खिताब

ब्रिटिश टेनिस स्टार एंडी मरे ने बीजिंग में चीन ओपन 2016 के फाइनल मुकाबले में खिताबी जीत हासिल की है।

- मरे ने ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 7-6 से मात देकर एकल खिताब जीता।
- चीन ओपन बीजिंग, चीन में आयोजित एक वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है।

चीन ओपन: रादवांस्का ने जीता महिला एकल खिताब

पोलैंड की एग्निएज्का रादवांस्का ने बीजिंग में चीन ओपन 2016 महिला एकल वर्ग के फाइनल खिताबी जीत हासिल की है।

- रादवांस्का ने योहान्ना कोंटा को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से मात देते हुए खिताबी जीत हासिल की।

आईसीसी ने कोहली को सौंपी टेस्ट चैम्पियनशिप गदा

भारत के दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बनने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को इंदौर में आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप गदा सौंपी।

- आईसीसी की तरफ से पूर्व भारतीय कप्तान और आईसीसी क्रिकेट हाल आफ फेम में शामिल सुनील गावस्कर ने सीरीज के पुरस्कार वितरण समारोह के तुरंत बाद कोहली को गदा सौंपी। भारत ने तीसरे और अंतिम टेस्ट को जीतकर न्यूजीलैंड का 3-0 से वाइटवाश कर दिया।

जीतू राय ने जीती आईएसएसएफ पिस्टल चैंपियंस ट्रॉफी

भारत के अनुभवी पिस्टल निशानेबाज जीतू राय ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है।

- जीतू ने सर्बिया के दमिर मिकेच को बोलोग्ना, इटली में हुए फाइनल में 29.6, 28.3 से हराया।
- इसके साथ ही उन्हें 5000 यूरो नकद पुरस्कार भी मिला।

रोसबर्ग ने जीता जापान ग्रांप्री.फॉर्मूला-1 का खिताब

मर्सिडीज टीम के जर्मन रेसर निको रोसबर्ग ने सुजुका सर्किट पर आयोजित जापान ग्रांप्री. फॉर्मूला-1 रेस जीत ली है।

- मर्सिडीज के उनके साथी रेसर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे, जबकि रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने दूसरा स्थान हासिल किया।

अश्विन फिर बने नंबर वन टेस्ट गेंदबाज

भारतीय ऑफ स्पिनर आर. अश्विन आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में फिर शीर्ष पर पहुंच गए जिन्होंने न्यू जीलैंड के खिलाफ इंदौर टेस्ट में 140 रन देकर 13 विकेट चटकाए।

- अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया जिन्होंने तीन मैचों में 27 विकेट लिए। अब उनके नाम 39 टेस्ट में 220 विकेट हैं।
- वह 2000 के बाद से 900 अंक हासिल करने वाले गेंदबाजों मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्रा, वेर्नेन फिलैंडर, डेल स्टेन और शॉन पोलक की जमात का हिस्सा हो गए।

पूर्व F1 ड्राइवर मार्क वेबर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फार्मूला वन ड्राइवर मार्क वेबर ने, साल के अंत में में बहरीन में पेशेवर रेसिंग से सेवानिवृत्त लेने की घोषणा की है।

- इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 2015 में वर्ल्ड एंड्यूरेंस खिताब जीता था।

डेनियल रिकार्डो ने वर्ष 2016 का मलेशियन ग्रां प्री खिताब जीता

डेनियल रिकार्डो ने सेपांग इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित मलेशियन ग्रां प्री खिताब जीता। मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर रहे जबकि निको रोज़बर्ग तीसरे स्थान पर रहे।

- मलेशियन ग्रां प्री फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप का ही भाग है।
- इसका आयोजन 1999 से सेपांग इंटरनेशनल सर्किट में किया जाता है।

ब्रिक्स अंडर-17 फुटबॉल: ब्राजील विजेता

ब्राजील ने पहले ब्रिक्स अंडर-17 फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर खिताब जीत लिया।

- तीसरे स्थान के मुकाबले में रूस ने पिछड़ने के बावजूद चीन को 2-1 से शिकस्त दी।
- दस दिवसीय टूर्नामेंट गोवा में आयोजित किया गया।

900 वनडे खेलने वाला पहला देश बना भारत

धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे के साथ ही टीम इंडिया ने 900 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। किसी भी टीम ने इससे ज्यादा वनडे नहीं खेले हैं।

- भारत ने अपना पहला वनडे साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था जिसमें इंग्लैंड की टीम विजयी रही थी।

विश्व के सबसे तेज़ धावक उसैन बोल्ट 2017 में लेंगे संन्यास

विश्व के सबसे तेज़ धावक उसैन बोल्ट ने बताया है कि वह अगले साल अगस्त में लंदन में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लेंगे।

- विश्व के महानतम धावक माने जाने वाले बोल्ट के नाम 100 मीटर, 200 मीटर और 4×100 मीटर की स्प्रिंट का विश्व रिकॉर्ड है।

सौरभ वर्मा ने चीनी ताईपेई ओपन खिताब जीता

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने 16 अक्टूबर 2016 को चीनी ताईपेई ओपन बैडमिंटन खिताब जीता। ताईपेई में खेले गये इस टूर्नामेंट की खिताबी राशि 55000 डॉलर थी।

- सौरभ ने मलेशिया के डेरेन लियु को 12-10, 12-10, 3-3 सेहराया। सौरभ वर्मा ने पहले दो सेट 12-10 एवं 12-10 से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

नीरज गोयत ने बरकरार रखा WBC एशिया वेल्टरवेट खिताब

भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयत ने ऑस्ट्रेलिया के बेन कार्डिट को हराकर अपना WBC एशिया वेल्टरवेट खिताब अपने पास ही बरकरार रखा है।

- 24 वर्षीय नीरज ने निर्णय के लिए 12 राउंड तक चले इस भीषण मुकाबले में अपने 26 वर्षीय प्रतिद्वंदी को 120-110, 119-109, 115-113 से हराया।

कोच्चि को फीफा अंडर-17 विश्व कप मेजबानी की मंजूरी मिली

विश्वफुटबाल संस्था फीफा, फीफा ने कोच्चि व मुंबई को अगले साल होने वाले फीफा अंडर-17 विश्व कप के आयोजन स्थलों के रूप में चुना है।

- कोच्चि पहला भारतीय शहर है जिसे 2017 में होने वाले फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी के लिये आधिकारिक स्थल घोषित किया गया है। विश्वफुटबाल संस्था फीफा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इसे हरी झंडी दिखायी।

रूस 2018 फीफा विश्व कप में 'भेडिया' होगा शुभंकर

रूस में वर्ष 2018 में होने वाले फीफा फुटबाल विश्वकप के लिये चश्मा पहने भेडिये को शुभंकर चुना गया है। इसे जाबीवाका नाम दिया गया है।

- इसके नाम का अर्थ है- 'स्कोर करने वाला'।
- इसे कुल वोटों के 53 फीसदी वोट मिले तथा कई महीनों तक चली ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर लोगों ने एक बिल्ली (20%) और शेर (27%) के ऊपर भेडिये को तरजीह देते हुये फुटबाल विश्वकप के लिये शुभंकर चुना है।

कबड्डी में भारत की बादशाहत बरकरार, फाइनल में ईरान को दी मात

भारतने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी करते हुए शनिवार को अहमदाबाद में कबड्डी विश्व कप 2016 के फाइनल में ईरान को 38-29 से हराकर लगातार तीसरी बार विश्वखिताब जीता।

- पिछले दो विश्व कप फाइनल और एशियाई खेलों के फाइनल में भी ईरान को भारत के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
- भारत की ओर से अजय ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 अंक जुटाए।

उत्तर कोरिया जीता 2016 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप

टूर्नामेंट के फाइनल में उत्तर कोरिया ने जापान को हराकर 2016 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीत लिया।

- उत्तर कोरिया 2008 में इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण का भी विजेता था, वह अब इस टूर्नामेंट को दो बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है।
- स्पेन के लोरेना नवारो को इस टूर्नामेंट में 8 गोल करने के लिए गोल्डन शू अवार्ड दिया गया।

हेमिल्टन ने यूएस ग्रैंड प्री जीती

ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हेमिल्टन ने ऑस्टिन, टेक्सास, अमेरिका में हुई यूएस ग्रैंड प्री फार्मूला वन रेस अपने नाम की है।

- निको रोसबर्ग को दूसरे तथा रेड बुल के डेनियल रिकियार्डो को तीसरे पायदान से ही संतोष करना पड़ा।

किरण डिसूजा बने दुनिया की सबसे कठिनतम दौड़ को पूरा करने वाले पहले भारतीय

बेंगलुरु के किरण डिसूजा स्पार्टाथलन (Spartathlon) दौड़ को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गये हैं। इस दौड़ को दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक माना जाता है।

- 23 वर्षीय किरण ने 33 घंटे, 1 मिनट और 38 सेकंड में 246.6 किमी लंबी दूरी की ये दौड़ पूरी की।
- स्पार्टाथलन, यूनान (ग्रीस) में एथेंस एवं स्पार्टा शहरों के मध्य होने वाली एक वार्षिक दौड़ है जिसमें केवल 50 फीसदी लोग ही सफल होते हैं।

गगनजीत ने कोरिया ओपन खिताब जीता

भारत के गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने एशियन टूर खिताब का सूखा भी समाप्त करते हुए कोरिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। गगनजीत का एशियन टूर में यह छठा खिताब है।

- 28 वर्षीय गगनजीत ने चौथे राउंड में 67 का कार्ड खेला। उन्होंने 15 अंडर 269 के स्कोर के साथ खिताब जीता।
- गगनजीत ने जिम्बाब्वे के स्काट विन्सेंट और स्थानीय खिलाड़ी तेईवू किम को एक शाट के अंतर से पीछे छोड़ते हुये खिताब जीता।

ब्रिक्स अंडर -17 फुटबॉल टूर्नामेंट गोवा में शुरू

ब्रिक्स अंडर -17 फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला संस्करण में गोवा में शुरू हो गया है।

- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के बीच यह टूर्नामेंट इस महीने की 15 तारीख को गोवा में आयोजित होने वाले 8वें ब्रिक्स शिखर बैठक के अवसर पर आयोजित किया गया है।
- उद्घाटन मैच ब्राजील और चीन के बीच खेला जाएगा।

निधन

चर्चित कलाकार युसूफ अरक्कल का निधन

चर्चित कलाकार युसूफ अरक्कल का बीमारी के कारण 4 अक्टूबर को देहांत हो गया। वह 71 वर्ष के थे।

- वर्ष 1945 में केरल के चावक्कड में जन्मे अरक्कल ने कर्नाटक चित्रकला परिषद से पेंटिंग में डिप्लोमा हासिल किया।

स्वतंत्रता सेनानी रमेश कुलकर्णी का निधन

स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी के वयोवृद्ध नेता रमेश कुलकर्णी का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे।

- उनके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं।
- उनका जन्म 1927 में हुआ था और स्कूल के दिनों में ही वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे।
- उन्होंने वर्ष 1942 में चाय की केतली में स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी पम्फलेट बांटने को लेकर एक वर्ष की कारावास की सजा काटी थी।

थिएटर निर्देशक हस्नाम कन्हैयालाल का निधन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थिएटर निर्देशक हस्नाम कन्हैयालाल का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे।

- कन्हैयालाल को थिएटर में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्मभूषण और 1985 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

पूर्व जूनियर वेल्टरवेट चैंपियन 'द हाक' आरोन प्रियोर का निधन

09 अक्टूबर 2016 को 60 वर्ष की आयु में, हृदय रोग से लंबी लड़ाई के बाद मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम में शामिल अमेरिकी बॉक्सर आरोन प्रियोर का निधन हो गया।

- प्रियोर ने अपने करियर में 35 नॉकआउट के साथ 39-1 का रिकॉर्ड बनाया था।
- रिंग में उनके लिए सबसे बड़ा क्षण निकारगुआ के एलेक्स आरग्युलो के खिलाफ दो जूनियर वेल्टरवेट जीत थी।

मशहूर पोलिश फिल्म निर्देशक आंद्रज़ई वायदा का निधन

मशहूर पोलिश फिल्म निर्देशक आंद्रज़ई वायदा का 90 की उम्र में निधन हो गया।

- फिल्म कैनाल में नाजियों के खिलाफ पोलैंड की राजधानी वारशा में हुए विद्रोह की कहानी कही गयी है।
- साल 2000 में वायदा को ऑस्कर का लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

थाईलैंड के राजा भूमिबोल अतुल्यतेज का निधन

लगभग 70 सालों तक थाईलैंड पर शासन करने वाले राजा भूमिबोल अतुल्यतेज का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।

- उन्होंने बिखरे पड़े थाईलैंड को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि क्राउन प्रिंस महा वजिरालोंगकोर्न अब उनकी जगह नये राजा बनेंगे।

नोबेल विजेता दारियो फो का निधन

1997 में साहित्य के नोबेल विजेता इतालवी भाषा के महान नाटककार और अभिनेता दारियो फो का निधन हो गया है। वे 90 वर्ष के थे। इटली के प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने इसकी घोषणा की।

- वामपंथी विचारों वाले फो 20वीं सदी के राजनीतिक थियेटर की अहम शख्सियत थे। उनको एक्सिडेंटल डेथ ऑफ अनार्किस्ट और कांट पे, वॉट पे जैसे नाटकों के लिए जाना जाता है।

रवांडा के अंतिम राजा किगेली वीका निधन

हाल ही में, रवांडा के अंतिम राजा, किगेली वी दहिनदुर्वा का अमेरिका में 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है।

- बेल्जियम औपनिवेशिक सत्ता के साथ टकराव के बाद निर्वासन से पहले, उन्होंने इस पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र पर 1959 में लगभग 1 वर्ष तक शासन किया था।

दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के प्रतीकरामगोबिन का निधन

दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के प्रतीक मेवा रामगोबिन (83 वर्ष) का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।

- रामगोबिन महात्मा गांधी की पोती व मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधीके पति थे।
- वह मंडेला को रिहा कराने वाले अभियान के शुरुआती समर्थकों में से एक थे।
- उन्होंने गांधी संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की। वह हर साल गांधीआख्यान का आयोजन करते थे और विभिन्न जाति और वर्ग के लोगों को गांधी दर्शनकी जानकारी देते थे।

कतर के पूर्व अमीर खलीफा बिन हमद अल थानी का 84 साल की उम्र में निधन

कतर के पूर्व अमीर खलीफा बिन हमद अल थानीका निधन हो गया। वह 84 साल के थे।

- उन्होंने 1972 से लेकर 1995 तक शासन किया।
- कतर ने उनके निधन के बाद तीनदिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।
- वह वर्तमान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दादा थे।

पंजाबी फिल्मों के मशहूर कामेडियन मेहर मित्तल का निधन

पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्माता और प्रसिद्ध कामेडियन मेहर मित्तल काराजस्थान के माउंट आबू में एक अस्पताल में निधन हो गया।

- वह 81 वर्ष के थे और 24 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था।
- पंजाबी फिल्मों में एक सिने कलाकार के रूप में उनके निस्वार्थ, समर्पित और प्रेरित करने वाली सेवा के लिये उन्हें दादासाहेब फाल्के अकादमी द्वारा दादासाहेब फाल्के की 136वीं जयंती पर मुंबई में उन्हें सम्मानित भी किया गया था।

एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला का निधन

दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जुन्को ताबेई का निधन हो गया है। वह 77 साल की थीं।

- वो साल 1975 में एवरेस्ट पर पहुंची थीं। तब उनकी उम्र 35 साल थी। उसके बाद साल 1992 तक वो दुनिया की सात सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने में कामयाब रहीं।

प्रसिद्ध लेखक दयानंद अनंत का 88 वर्ष की आयु में निधन

उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यविद् दयानंद अनंत का नैनीताल से कुछ दूर भवाली में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 88 साल के थे।

- वे उत्तराखंड के प्रख्यात लेखकों में एक थे। उन्होंने दो लघु कथा पुस्तकें, तीन उपन्यास और पांच टेलीविजन नाटक लिखने के अलावा कई कॉमिक लिखे।

कश्मीरी गायिका राज बेगम का निधन

प्रसिद्ध कश्मीरी गायिका राज बेगम का श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

- राज बेगम को नाइटिंगल ऑफ कश्मीर कहा जाता है।
- उन्हें वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

1970 वर्ल्ड कप के हीरो कार्लोस अल्बर्टो का निधन

ब्राजील फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान कार्लोस अल्बर्टो जिन्होंने 1970 के वर्ल्ड कप में इटली के खिलाफ शानदार गोल किया था, का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

- कार्लोस फ्लुमिनेंस, सेंटोस, फ्लेमिंगो व न्यूयॉर्क कॉसमॉस जैसे क्लबों के लिये भी खेले तथा उन्हें नेतृत्व गुणों के चलते 'द कैप्टन' निकनेम भी दिया गया।

